

दैनिक

सद्भावना पाती

...प्राणियों में सद्भावना हो...

www.sadbhawnapaati.com

Email: sadbhawnapaatinews@gmail.com

इंदौर, शुक्रवार 03 मई, 2024

वर्ष-12 अंक-5

मूल्य -1 रु.

कुल पृष्ठ - 8

शिप्रा में डुबकी लगाकर बोले सीएम यादव

कुछ लोग प्रश्न करते हैं, बहुत दुख होता है

कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा था- नदी में इंदौर की गंदगी गिर रही

उज्जैन (एजेंसी)। उज्जैन आए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार सुबह शिप्रा के दत्त अखाड़ा घाट पहुंच गए। उन्होंने नदी में डुबकी लगाई, तैराकी भी की। आचमन के बाद सीएम ने कहा, उज्जैन की पहचान मां शिप्रा से है। हमारी परंपरा है स्नान के बाद तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं, लेकिन बड़ा दुख होता है कि कुछ लोग मां शिप्रा पर प्रश्न करते हैं।

कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आज उज्जैन आए। वे फ्रींग जलाके में आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान में शामिल हुए। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत फॉर्म भरवाए। नव मतदाता और लाभार्थियों से मुलाकात की।

23 अप्रैल को शिप्रा में मिल रहे गंदे नाले के पानी को लेकर तराना से विधायक व उज्जैन लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने सरकार पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था, पिछले 20 साल से




मध्यप्रदेश में और 10 साल से देश में भाजपा की सरकार है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग कहाँ हैं? 40-50 लाख इंदौर वासियों का मल-मूत्र रोज इसमें मिलता है।

महेश परमार ने यह भी कहा था, शिप्रा मां अशुद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने शिप्रा मां को शुद्ध करने की शपथ ली थी। टिकट मिलने पर डुबकी लगाई थी। 600-1000 करोड़ खर्च हो गए। बात सनातन, महाकाल और प्रभु श्रीराम की करते हैं, मां शिप्रा को शुद्ध नहीं कर पाए।

20 साल पहले उज्जैन को नवंबर-दिसंबर के बाद शिप्रा का पानी नहीं मिलता था- मुख्यमंत्री ने परमार का नाम लिए बिना कहा, सभी जानते हैं कि मां का तट है, इसकी पवित्रता बनाई रखनी चाहिए। शिप्रा का पानी हरा-भरा है, मई के महीने में भी पानी है। नदी में स्नान करने का आनंद ही अलग है। उन्होंने कहा, कल से यहाँ पंचकोशी की बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होगी। उज्जैन में हमारी सरकार द्वारा किए गए काम के कारण पूरे साल नदी का जल मिल रहा है, मुझे इस बात का संतोष है। आज से 20 साल पहले यहाँ नवंबर-दिसंबर के बाद पानी नहीं मिलता था।

सीएम बोले- नई सरकार बनने पर गोपाल कृष्ण भी मुस्कुराएंगे- उज्जैन में संत समागम एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा, आज भी कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए नहीं जा रहे।

क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे धर्म के वोत नहीं मिलेंगे। ये उनकी गलतफहमी है। उन्होंने कहा, आज भगवान राम का आनंद आया है। कल नई सरकार बनेगी। निश्चित रूप से गोपाल कृष्ण भी मुस्कुराएंगे।



राजस्थान सरकार सुनिश्चित करे कि प्रदेश में कोई बाल विवाह नहीं हो: उच्च न्यायालय

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान में अक्षय तृतीया से पहले उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य में कोई बाल विवाह नहीं हो। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि बाल विवाह होने पर सरपंच और पंच को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बाल विवाह की कई घटनाएं मुख्य रूप से अक्षय तृतीया पर होती हैं। अक्षय तृतीया इस बार 10 मई को है।



उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बाल विवाह को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को अपने आदेश में कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू होने के बावजूद, राज्य में बाल विवाह अब भी हो रहे हैं। अदालत ने कहा कि हालांकि अधिकारियों के प्रयासों के कारण बाल विवाह की संख्या में कमी आई है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। याचिकाकर्ताओं के वकील आरपी सिंह ने कहा कि अदालत को एक सूची भी उपलब्ध कराई गई जिसमें बाल विवाह और उनकी निर्धारित तिथियों का विवरण था।

कलकत्ता हाईकोर्ट बोला-

संदेशखाली केस में सीबीआई जांच सही दिशा में, ममता सरकार एजेंसी का सहयोग नहीं कर रही

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के खिलाफ अपराध (यौन शोषण) मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में गुरुवार (2 मई) को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को भी पार्टी बनाने की



परमिशन दे दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उसे पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों का जांच में सहयोग नहीं मिल रहा है। मामले में एजेंसी की जांच जारी है। ऐसे में कोर्ट एजेंसी की रिपोर्ट का खुलासा करना नहीं करना चाहेगा। क्योंकि इससे जांच पर असर पड़ सकता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरेण्मय भट्टाचार्य की बेंच सीबीआई की रिपोर्ट को गोपनीय रखने की अपील भी मान ली। मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी।

पीएम मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा तंज

कांग्रेस मर रही है... लेकिन पाकिस्तान शहजादे को पीएम बनाने को उतावला है

पाकिस्तान के फवाद चौधरी ने की थी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ

अहमदाबाद (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा तंज कसा है। गुजरात के आगंद में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के लिए दुआ कर रहे हैं और शहजादे को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पीएम मोदी ने यह टिप्पणी पीटीआई प्रमुख इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री



फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट के बाद की। चौधरी ने अपने हैंडल पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का समर्थन करते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें राहुल गांधी अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं।

फवाद चौधरी की टिप्पणी से वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटीआई के नेता की पोस्ट का जिक्र करते हुए चुनावी रैली में राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि संयोग देखिए, आज भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेकर भी कांग्रेस को दृढ़ता मुश्किल हो रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से दोहराया कि जब तक वे जीवित हैं तब तक धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देने देंगे।

अखिलेश यादव की राह पर मायावती

बसपा उम्मीदवारों की 11वीं सूची में तीन सीटों पर बदल दिए उम्मीदवार

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में विपक्ष की राजनीति अलग ही अंदाज में चलती दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों को लेकर विपक्षी दलों के बीच ऊहापोह दिख रहा है। यही कारण है कि लगातार उन्हें बदला जा रहा है। उम्मीदवारों के बदलने के मामले में सबसे आगे समाजवादी पार्टी दिख रही है। बदले हुए उम्मीदवार के तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं, अब बहुजन समाज पार्टी ने भी सपा की तर्ज पर उम्मीदवारों को बदलना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों में कई उम्मीदवारों के नाम में बदलाव किया गया। हालांकि, बसपा उम्मीदवारों की 11वीं सूची में शामिल 6 उम्मीदवारों के घोषित नाम में तीन लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार बदले गए। वहीं, दो सीटों पर तीसरी बार उम्मीदवार के नाम का बदलाव किया गया।



दो सीटों पर तीसरा बदलाव

बहुजन समाज पार्टी की ओर से लगातार उम्मीदवार बदलने का क्रम जारी है। पार्टी की ओर से घोषित की गई उम्मीदवारों की 11वीं सूची में दो सीटों पर तीसरी बार उम्मीदवार घोषित किया है। इसमें आजमगढ़ और संत कबीर नगर लोकसभा सीट शामिल हैं।

प्रियंका गांधी बोलीं-

मोदी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लाए

चिरमिरी में कहा- अब कोविड सर्टिफिकेट से पीएम की फोटो गायब हो गई

कोरबा (एजेंसी)। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, मोदी जी खुद को बड़ा इमानदार बताते हैं, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी

स्कीम मोदी जी ने देश की संपत्ति को अपने मित्रों को सौंप दिया- भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात की। उन्होंने इसके लिए काम किया, लेकिन कुछ पार्टियों और भाजपा को ये पसंद नहीं आया। आज जो देश में राजनीति है, वो किसानों, श्रमिकों, गरीबों के विरोधी राजनीति चल रही है। आपकी कई बातें हैं, आपकी दिकतें हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं हो रही हैं। आपके मंत्रों पर बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, जी-20 की बातें होती हैं, लेकिन आपके संघर्षों की बातें नहीं होती हैं। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाएं जलाई जा रही हैं, उनका शोषण हो रहा है, जो कर रहा है, सरकार उसे बचाने में लगी है।



स्कीम लेकर आए। यह स्कीम थी, जो चंदा देगा, उसका नाम गुप्त रहेगा। इसके तहत अपने बड़े-बड़े मित्रों से चंदा लिया। पहले उनके ऊपर छपा मारा, फिर चंदा लेकर जांच बंद कर दी। उन्होंने गुजरात में पुल गिरने की घटना का उदाहरण भी दिया। प्रियंका गुरुवार को कोरबा लोकसभा के चिरमिरी में जनसभा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कोविड वैक्सिन 'कोवीशील्ड' को लेकर आई रिपोर्ट का भी जिक्र किया। कहा कि, टीका लगाकर कुछ लोग मर गए, कुछ बीमार हो गए। पहले सर्टिफिकेट मिलता था, तो उसमें मोदी जी की फोटो होती थी, लेकिन अब लगवाओगे तो नहीं मिलेगी। मोदी जी की सरकार में गरीबों के साथ अन्याय हुआ, खरबपतियों और उद्योगपतियों के साथ नहीं हुआ। बड़े-बड़े भ्रष्ट नेताओं को अपने पार्टी में डाल रखा है। जो दूसरी पार्टियों के नेता थे। पहले उन पर दबाव डाला, जांच शुरू की। जब उनकी पार्टी में आ गए तो वह दूध के धुले हो गए।

एमपी के 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने बैठक जल्द

552 ई-बसें चलाने नगरीय विकास विभाग तैयार करेगा कार्ययोजना

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसें के संचालन को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसके लिए मोहन यादव कैबिनेट पहले ही फरवरी में पीएम ई बस सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 6 बड़े शहरों में इसके संचालन का फैसला कर चुकी है। अब इस योजना में चलाई जाने वाली बसों के आभरण और बसों के केंद्र से डिमांड समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के साथ एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेंटिंग प्रोसिजर) तैयार करने को लेकर नगरीय प्रशासन और विकास विभाग सक्रिय हो गया है।



लोकसभा चुनाव के दौरान चूँकि नीतिगत निर्णय लेने का काम नहीं हो सकता और कैबिनेट बैठक नहीं हो सकती। इसलिए अब मंत्रालय के अधिकारी आचार संहिता लागू होने के पहले लिए गए निर्णयों के नियमों को बनाने और अन्य प्रक्रिया पूरी करने में जुटे हैं। इसी तारतम्य में जल्द ही नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर इसी सप्ताह बैठक बुलाई जाने वाली है।

इन शहरों में है चलाने का प्रस्ताव

मोहन सरकार ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में हुई कैबिनेट में प्रदेश के जिन 6 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया था उसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर नगर निगम क्षेत्र शामिल हैं, जहां 552 ई बसों का संचालन किया जाएगा। एमपी सरकार प्रधानमंत्री ई-बस योजना के अंतर्गत इन बसों का संचालन करेगी। केंद्र सरकार बसें उपलब्ध कराएगी और 12 साल के लिए ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी देगी। इस योजना से ई-बसों का प्रमोशन होगा और धीरे-धीरे विस्तार भी किया जाएगा।

समिति का गठन कर तय करेंगे संचालन व्यवस्था

अब तक ई-बसों के संचालन को लेकर जो फैसले हुए हैं उसके अनुसार राज्य शासन द्वारा ई-बसों के संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का दावा है कि ई-बसों के संचालन के बाद यात्री किराए में तीस फीसदी तक की कमी हो सकती है। इसके साथ ही डीजल पर निर्भरता भी घटेगी और प्रदूषण रोकने में भी आसानी होगी।

पीएम ने 'मास रैपिस्ट' के लिए वोट मांगकर महिलाओं का अपमान किया: राहुल गांधी

भारत से भागने में आरोपी की मदद की, यही मोदी की गारंटी



बेंगलुरु (एजेंसी)। राहुल गांधी ने गुरुवार 2 मई को कर्नाटक के शिवमोगा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मास रैपिस्ट (कड़ियों के साथ रेप करने वाला) के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने रैपिस्ट को भारत से भागने में मदद की। यही मोदी की गारंटी है। कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस के बीच गठबंधन है। जेडीएस सांसद और एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेव्ना गौड़ा

पर रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है।

राहुल ने ये भी कहा कि जैसे ही हम महालक्ष्मी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इरीटेशन हो रहा है, उन्हें चिढ़ मच रही है, क्योंकि उनके अरबपति मित्रों को पैसा नहीं मिल पा रहा।

हमारी सरकार युवाओं को अग्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रही है। युवा निधि में आपको यहां अभी 3 हजार रुपए महीना मिलता है। हम पहली नौकरी पक्की स्कीम लागू करने जा रहे हैं। एक साल की नौकरी मिलेगी, 8500 रुपए हर महीने अकाउंट में जाएंगे, एक साल में एक लाख रुपए होंगे। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को बेस्ट कालिटी ट्रेनिंग मिलने वाली है।

उन्होंने (भाजपा सरकार) आपको बेरोजगारी दी, हम आपको अग्रेंटिसशिप का अधिकार और दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग देने जा रहे हैं।

राहुल का अमेठी से चुनाव लड़ना तय, राहुल के नाम से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म खरीदा; आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख

अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी के नाम से अमेठी से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म खरीदा गया है। वह कल नामांकन कर सकते हैं। गुरुवार सुबह को अमेठी पहुंचे सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने कहा- गांधी परिवार का सदस्य ही चुनाव लड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या राहुल लड़ेंगे? उन्होंने कहा- सारी तैयारियां उनके ही लिए हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं। गुरुवार को गांधी परिवार के नामांकन का काम देखने वाले वकील केशी कोशिक पहले रायबरेली और फिर अमेठी पहुंचे। ऐसे में कयास यह भी है कि प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। यूपी कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के को-कोऑर्डिनेटर विकास अग्रहरि ने भी बुधवार रात सोशल मीडिया पर 3 मई को राहुल के नामांकन को पोस्ट किया। अमेठी-रायबरेली सीट पर शुक्रवार 3 बजे तक नामांकन की आखिरी तारीख है। यानी, आज के कुछ घंटे और कल का दिन ही बचा है। लेकिन पार्टी चुप्पी साधे है।

संक्षिप्त समाचार

मतदान दलों का तृतीय प्रशिक्षण प्रारम्भ



हरदा (निप्र)। लोकसभा निर्वाचन के लिये आगामी 7 मई को मतदान होगा। मतदान से पूर्व मतदान दलों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा व शासकीय महाविद्यालय टिमरनी में मतदान दलों में नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा में आयोजित प्रशिक्षण में पहुँच कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य सिंह ने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारियों से कहा कि मतदान के दौरान पूर्णतः निष्पक्ष रहें। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों से कहा कि मतदान दलों के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार पुस्तिका में दिये गये दिशा निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन करें तथा आयोग के दिशा निर्देशों व प्रावधानों का मतदान के दिन सख्ती से पालन कराएँ। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में ईवीएम और वीवीपेट मशीन संचालन की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लें ताकि मतदान के समय परेशानी न हो। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनेर्स ने मतदान दलों को आयोग के निर्देशों और प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया।

कलेक्टर सिंह ने वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने सोमवार सुबह हरदा शहर में संचालित वृद्धाश्रम का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहाँ निवासरत वृद्धजनों से चर्चा कर उन्हें वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने वृद्धाश्रम में व्याप्त अव्यवस्थाओं के संबंध में नाराजगी प्रकट की और मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री कमलेश पाटीदार को निर्देश दिये कि वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं को सुधारे। उन्होंने वृद्धाश्रम भवन की रिपेयरिंग, सफाई व पुताई कराने तथा भवन की प्रकाश व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिये।

मतदान केन्द्रों पर विशेष कैम्प आयोजित हुए



हरदा (निप्र)। लोकसभा निर्वाचन में मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित करने हेतु मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 'चलो अपने बूथ को जाने, अपने मत की ताकत पहचानें' थीम पर मतदान केन्द्र स्तर पर विशेष कैम्प आयोजित किये गये। जिला पंचायत के मुख्य कार्यालय अधिकारी एवं स्वीप के नोडल अधिकारी श्री रोहित सिंसोनिया ने बताया कि विशेष कैम्प के दौरान ग्राम पंचायत बारांगी, धनवाड़ा, नगावामाल, कमताडी, सिराली के मतदान केन्द्र क्रमांक 193, जनपद पंचायत कार्यालय हरदा, आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 29 हरदा, शासकीय प्राथमिक शाला सुदामा नगर हरदा, सोडनपुर व रवांग सहित जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष कैम्प आयोजित किये गये। इस दौरान मतदान केन्द्रों पर उपस्थित सभी मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाता सूची चस्पा की गई। मतदाताओं को मतदाता सूची में उनके नाम एवं अन्य विवरण से अवगत कराया गया। मतदाताओं को मतदान दिवस, मतदान का समय, मतदान का स्थान आदि के बारे में बताया गया तथा मतदान करने के लिये मतदाताओं को आमंत्रित किया गया।

हंडिया में दीप प्रज्वलित कर लोकसभा निर्वाचन हेतु मतदान की अपील की

हरदा (निप्र)। लोकसभा निर्वाचन में मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित करने हेतु मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इसी क्रम में लोकसभा निर्वाचन के लिए आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के तहत सोमवार रात्रि में हंडिया में स्व सहायता समूह की महिलाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने मतदान की शपथ ली। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत रस्साकशी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

नगर परिषद बुधनी में मतदाता जागरूकता के तहत वाहन रैली आयोजित

सोहोर (निप्र)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने सभी संबंधित विभागों, शिक्षा विभाग एवं अन्य सभी संस्थाओं को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिये गये। इसी श्रृंखला नगर परिषद बुधनी एवं रेहटी में स्वीप गतिविधि अन्तर्गत मतदाता जागरूकता एवं शतप्रतिशत मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिये की स्वच्छता टीम द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए प्रचार वाहन रैली निकली गई तथा शतप्रतिशत मतदान का संदेश हर वाड हर गली हर घर तक पहुँचाया गया। इसी प्रकार नगर परिषद जावर में भी महिलाओं को मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत महिलाओं को आपने मताधिकार का उपयोग करने की जानकारी दी गई और मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई एवं जागरूकता रैली निकाली गई। वाहन रैली निकाली के साथ अन्य कार्यक्रम के तहत आमजनो को लोकसभा चुनाव में स्वयं मतदान करें और अपने परिवार आपसपा पड़ोसियों को मतदान करने के लिए जागरूक करने एवं अपने मताधिकार का उपयोग कर लोकसभा निर्वाचन में सर्वाधिक मतदान करा सकें।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी खत्री ने सेहतगंज खरबई तथा रायसेन में मतदान केन्द्रों का किया निरीक्षण

बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप के सदस्यों से संवाद कर जागरूकता गतिविधियों की ली जानकारी

रायसेन (निप्र)। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र श्री मनोज खत्री द्वारा आज रायसेन जिले में सांची विधानसभा के सेहतगंज, खरबई तथा रायसेन में मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर आगामी 07 मई को होने वाले मतदान की तैयारियों तथा मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जा रही गतिविधियों का जायजा लिया गया। उन्होंने रायसेन में बूथ चलो अभियान अंतर्गत आयोजित कार्यशाला में बीएलओ को अधिकाधिक मतदान हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा मतदान की तैयारियों तथा स्वीप गतिविधियों के बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों पर आयोग के निर्देशानुसार सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री खत्री द्वारा सेहतगंज तथा खरबई में मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप के सदस्यों से चर्चा करते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली गई। उन्होंने बीएलओ से गत लोकसभा निर्वाचन तथा विधानसभा निर्वाचन में मतदान प्रतिशत, वर्तमान में मतदाताओं की संख्या, मतदाता पर्ची का वितरण आदि की जानकारी ली। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं सहित बूथ अवेयरनेस ग्रुप के अन्य सदस्यों से संवाद करते हुए कहा कि मतदान दिवस 07 मई को प्रत्येक मतदाता को मतदान केन्द्र तक लाना है। उन्होंने कहा कि



ग्राम में मुनादी कराकर तथा अन्य माध्यमों से भी मतदाताओं को बताएँ कि मतदान के लिए मतदाता पर्ची के साथ वोटर आईडी, आधार कार्ड या अन्य निर्धारित फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना जरूरी है। इसके उपरान्त संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री खत्री द्वारा रायसेन में तहसील कार्यालय परिसर स्थित मतदान केन्द्र तथा स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में स्थित मतदान केन्द्र का निरीक्षण किया

गया। उन्होंने यहां बीएलओ से मतदाताओं की संख्या, मतदान पर्ची का वितरण आदि की जानकारी ली। साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दुबे ने विदिशा संसदीय क्षेत्र में शामिल जिले के विधानसभा क्षेत्र सांची, सिलवानी और भोजपुर में 07 मई को मतदान सम्पन्न कराने की जा रही तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने स्वीप गतिविधियों के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि तीनों विधानसभाओं के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में दीवार लेखन, जागरूकता रैली, वाहनों से एनाउंसमेंट सहित अन्य माध्यमों से मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है।

जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि ग्रामों में 01 मई से 05 मई तक बीएजी रूप के सदस्यों द्वारा प्रभात फेरी निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी प्रकार 06 मई को घर-घर जाकर मतदाताओं को पीले चावल देकर 07 मई को मतदान केन्द्र आकर वोट डालने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मतदान दिवस 07 मई को भी बीएजी रूप अधिकाधिक मतदान कराने हेतु कार्य करेंगे। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री पीसी शाक्या, तहसीलदार श्री हर्ष विक्रम सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर सिंह ने हरदा शहर के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया

हरदा (निप्र)। आगामी 7 मई को लोकसभा निर्वाचन के लिये मतदान होगा। मतदान केन्द्रों पर की जाने वाली सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य सिंह ने मंगलवार सुबह हरदा शहर के लगभग एक दर्जन मतदान केन्द्रों का भ्रमण किया। कलेक्टर श्री सिंह ने इस दौरान नापतोल निरीक्षक कार्यालय व जिला पंचायत में बनाये गये मतदान केन्द्रों के साथ-साथ सुदामा नगर, के आंगनवाड़ी व स्कूल, प्राथमिक विद्यालय हरदा खुर्द, नवीन उर्दू माध्यमिक विद्यालय, लाल स्कूल, फाईल वार्ड स्थित प्राथमिक शाला, उड़ा वार्ड स्थित स्कूल व आंगनवाड़ी भवन में बनाये गये मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान मतदान केन्द्रों पर उपस्थित बीएलओ से मतदाता पर्ची वितरण की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर श्री सिंह ने निरीक्षण के दौरान मतदान केन्द्रों में बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर, रैम्प, आने व जाने के लिये अलग-अलग दरवाजे के संबंध में उपस्थित अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने इस अवसर पर एसडीएम व मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान दलों के लिये भोजन, पानी, चाय-नाश्ते आदि की



बेहतर व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि जिन मतदान केन्द्रों में फर्नीचर की समस्या हो, वहाँ अन्य मतदान केन्द्रों से मतदान दलों के फर्नीचर की व्यवस्था करें। कलेक्टर श्री सिंह ने भ्रमण के दौरान निर्देश दिये कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मतदान केन्द्रों में पंखे, कूलर आदि की

व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री रोहित सिंसोनिया, अपर कलेक्टर डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कम्पनी श्री अनूप सक्सेना व एसडीएम हरदा श्री कुमार शानु सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

एवीईएस श्रेणी के सभी मतदाताओं ने मतदान किया

विदिशा (निप्र)। निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार मीडिया कर्मियों को एवीईएस श्रेणी में शामिल किया गया है। आयोग के संज्ञान में लाया गया था कि कवरेज करने के दौरान मीडिया कर्मी मतदान से वंचित ना रहे इसलिए पूर्व घोषित अति आवश्यक सेवाओं में मीडियाकर्मियों को भी शामिल किया गया है। अतिआवश्यक श्रेणी के मतदाताओं को निर्धारित 12डी में आवेदन करना होता है। खासकर ऐसे मीडियाकर्मी जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं वे 12डी में आवेदन करने के लिए पात्रता रखते हैं। विदिशा जिले में कुल 13 मीडियाकर्मियों के द्वारा निर्धारित तिथियों तक 12 डी फार्म प्राप्त किया गया था जिसमें से आठ मीडियाकर्मियों ने 12डी फार्म में समुचित जानकारीयें दर्ज कर जिला

जनसंपर्क कार्यालय में जमा की गई थी सभी आठ आवेदन प्रकोष्ठ की नोडल अधिकारी व संयुक्त कलेक्टर सुश्री निकिता तिवारी के माध्यम से संबंधित एआरओ को प्रेषित किए गए थे ताकि एवीईएस श्रेणी के मतदाताओं को संबंधित एआरओ को पोस्टल वेटिंग सेंटर में मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

गौरतलब हो कि कुल विदिशा जिले में आठ मीडिया कर्मियों में से 6 जिला मुख्यालय के तथा दो सिरोंज तहसील के पत्रकार शामिल हैं। संयुक्त कलेक्टर एवं प्रकोष्ठ की नोडल अधिकारी सुश्री निकिता तिवारी ने बताया कि पहले दिन ही सभी आठों मीडिया कर्मियों ने मतदान कर अपने मौलिक अधिकारों के दायित्वों का निर्वहन किया है।

विभिन्न प्रकार की रैलियों से मतदाता जागरूकता के संदेशों का गगन घोष



विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री बुद्धेश कुमार वैद्य के द्वारा विदिशा जिले के सभी मतदाता मतदान करें के संदेशों का सम्प्रेषण करने के लिए किए गए नवाचारों के तहत आज सम्पूर्ण विदिशा जिले में विभिन्न प्रकार की रैलियों का आयोजन कर मतदाता जागरूकता के संदेशों का सम्प्रेषण किया गया है। जिला मुख्यालय की तर्ज पर तहसील व बड़े कस्बों में भी इसी प्रकार की मतदाता

जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया था। स्वीप गतिविधियों के तहत विदिशा जिला मुख्यालय पर आज जिन रैलियों का संयुक्त रूप से आयोजन किया गया था उनमें बाईक व स्कूटर रैली जो रामलीला तिराहे से बड़ बाजार एमएलबी हेकर स्टेडियम पहुंची। इसी प्रकार मशाल रैली जिसका नेतृत्व विभिन्न धर्मगुरुओं के द्वारा किया गया। मशाल रैली एमएलबी गर्ल्स स्कूल से गुलाब वाटिका होते

हूए खेल स्टेडियम पहुंची है। पैदल साइकिल रैली की शुरुआत नीमताल से गुलाब वाटिका होते हुए खेल स्टेडियम पहुंची है। जबकि आठो रैली रेल्वे स्टेशन कांच मंदिर मुख्य बाजार, तिलक चौक, एमएलबी, गुलाब वाटिका होते हुए खेल स्टेडियम पहुंची है। उपरोक्त सभी रैलियों में हजारों की संख्या में नागरिकों ने सहभागिता निभाई है। मशाल रैली में कलेक्टर श्री बुद्धेश कुमार वैद्य, पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला, जिला पंचायत सीईओ डॉ. योगेश भारसट, एसडीएम श्री क्षितिज शर्मा के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता निभाई है। सभी रैलियों का एक ही उद्देश्य था कि विदिशा शहर में शत प्रतिशत मतदान हो और यह संदेश प्रदेश में पहुंचे ताकि मतदान के प्रतिशत मामलों में विदिशा प्रदेश में सर्वोच्च स्थान पर हो। रैलियों में सहभागिता निभाने वालों के द्वारा मतदाता

जागरूकता के संदेशों का गगन घोषी स्वरूप प्रदान किया है। रैली में सबसे आगे मतदाता जागरूकता रथ जो विभिन्न स्लोगानों का माइक के माध्यम से उदघोषित कर रहा था। जिला खेल स्टेडियम परिसर में जिला मुख्यालय पर आज आयोजित सभी रैलियों का संयुक्त समापन हुआ। समापन के पूर्व स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा मतदाता जागरूकता पर आधारित प्रेरक लघु गीतों की प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं वहीं दिव्यांग अनुराग सोनी ने अपने अनेखे अंदाज में अंगुलियों के इशारों से मतदाता जागरूकता के संदेशों को रेखांकित किया है। आयोजन के उद्देश्यों को स्वीप नोडल अधिकारी के द्वारा अभिव्यक्त किया गया।

शपथ: कलेक्टर श्री बुद्धेश कुमार वैद्य के द्वारा मतदाता जागरूकता की शपथ का वाचन किया गया जिसे सभी ने दोहराया है और मतदान करेंगे का संकल्प लिया है।



लोकसभा चुनाव में अधिकाधिक मतदान सुनिश्चित करने मतदाता पर्ची निरन्तर वितरण मतदाता पर्ची वितरण कार्य का अधिकारी द्वारा निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। लोकसभा चुनाव के इस महापर्व में जिले के सभी मतदाता मतदान के लिए शत-प्रतिशत भागीदारी एवं सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए पूरे जिले में मतदाता पर्ची का वितरण का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। जिले में बीएलओ एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा मतदाता पर्ची वितरण के लिए मतदाता के घर-घर जाकर पर्ची वितरण कर रहे हैं और मतदाताओं को मतदान दिवस को सुबह से ही मतदान करने की समझाईश दी जा रही है और मतदान का महत्व समझाया जा रहा है। मतदाताओं से कहा जा रहा है कि वा स्वयं मतदान करें और अपने एवं अपने पड़ोस और महोदयों से सर्वाधिक मतदान के लिए प्रेरित करें। इसके लिए कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने गत दिवस सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशन दिये और जिले में मतदाता जागरूकता के तहत अनेक गतिविधियों एवं कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

लोकसभा निर्वाचन संबंधी सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण किये जायें

कलेक्टर श्री सिंह ने नोडल अधिकारियों की बैठक में दिये निर्देश

हरदा (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य सिंह ने सोमवार को कलेक्टर सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन के लिये नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये कि लोकसभा निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य भारत निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन अनुसार निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किये जायें।

बैठक में इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री रोहित सिंसोनिया, अपर कलेक्टर डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, एसडीएम टिमरनी श्री महेश बड़ोले व एसडीएम हरदा श्री कुमार शानु सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने बैठक में निर्देश दिये कि मतदान दलों की ट्रेनिंग में ईवीएम व वीवीपेट संचालन की हेण्ड्स ऑन ट्रेनिंग सभी को दिलाई जाए।



उन्होंने कहा कि जिन वाहनों में ईवीएम का परिवहन किया जाना है, उन सभी वाहनों में 5 मई तक जीपीएस सिस्टम लगा दिये जायें। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को हिदायत दी कि आयोग को निर्धारित प्रारूप में जानकारी समय-समय पर भेजते रहें। कलेक्टर श्री सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदान सामग्री वितरण स्थल पर डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ

प्राथमिक उपचार की सुविधा के साथ उपस्थित रहें ताकि मतदान दल के किसी कर्मचारी का स्वास्थ्य खराब हो तो उसका तुरन्त उपचार किया जा सके। कलेक्टर श्री सिंह ने सामग्री वितरण स्थल पर दोनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदान दलों को मतदान केन्द्र तक ले जाने के लिये आने वाले वाहनों के लिये व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था के संबंध में भी निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में निर्देश दिये कि 6 मई को मतदान सामग्री वितरण स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान दलों को एक स्थान पर बैठाकर सामग्री दी जाए, इसके लिये उन्हें लाइन में न लगना पड़े, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदान सामग्री वितरण स्थल पर ही मतदान दलों को वाचन नाशता के पेयजल उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर श्री

सिंह ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन के गत 2 चरणों में मतदान प्रतिशत में कमी देखी गई है, अतः 7 मई को होने वाले मतदान से पूर्व तुरन्त उपचार किया जा सके। कलेक्टर श्री सिंह ने सामग्री वितरण स्थल पर दोनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदान दलों को मतदान केन्द्र तक ले जाने के लिये आने वाले वाहनों के लिये व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था के संबंध में भी निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में निर्देश दिये कि 6 मई को मतदान शहर के मतदान केन्द्रों में आयोग के निर्देश अनुसार मतदाताओं की सुविधा के लिये आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में कमी पाई गई, जिस पर उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री कमलेश पाटीदार के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

इंदौर, शुक्रवार 03 मई, 2024

पीएम की सूर्योदय योजना पर पत्नीता लगाती सोलर कंपनियों

शहर में सोलर पैनलों की कालाबाजारी शुरू

कांग्रेस प्रत्याशी की नाम वापसी के खिलाफ पार्टी फिर हाईकोर्ट पहुंची

इंदौर। लोकसभा चुनाव में इंदौर संसदीय सीट से अपने प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद कांग्रेस फिर हाईकोर्ट पहुंची है। इसमें कांग्रेस ने सिंगल बेंच के निर्णय को चुनौती दी है। कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल ने फिर न्यायालय की शरण है। हाई कोर्ट की युगलपीठ शुक्रवार को इस प्रकरण की सुनवाई करेगी। मोती सिंह पटेल ने हाई कोर्ट में रिट अपील दायर करते हुए युगल पीठ के समक्ष एकलपीठ के निर्णय को चुनौती दी है। जल्द ही फैसला होगा कि कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार मोती सिंह पटेल को याचिका खारिज कर दी थी। अब इस मामले में 3 मई को सुनवाई की जाएगी। इसमें अपीलकर्ता पटेल के साथ ही चुनाव आयोग का पक्ष भी सुना जाएगा। कांग्रेस के फॉर्म में अध्यक्ष कांति बम के साथ वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में मोती सिंह पटेल का नाम दिया गया था। जांच के दौरान पटेल का नामांकन खारिज हो गया। इसके बाद अध्यक्ष बम ने भी अपना नाम वापस ले लिया था। अध्यक्ष ने उसी दिन भाजपा का दामन थाम लिया था। कांग्रेस अब मोती सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है।

इन्दौर की रंगपंचमी की गैर को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने संबंधी राज्यस्तरीय समिति की बैठक

इंदौर। रंगपंचमी के अवसर पर इन्दौर से निकलने वाली गैर को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने के प्रयास शुरू कर दिये गये हैं। इसके लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक कल संस्कृति विभाग के संचालक एवं समिति के अध्यक्ष पी.एन. नामदेव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला प्रशासन की ओर से इन्दौर की गैर को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित करने के लिए भारत शासन नई दिल्ली को भेजे गए प्रस्ताव की संक्षिप्त जानकारी डॉ. मनोहर दास सोमानी ने दी। बैठक में समिति के संयोजक भालू मोड़े, सदस्यगण जयंत भिसे, अय्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता, डॉ. राजीव शर्मा ने भी बैठक में विचार व्यक्त किए व आगामी वर्ष में गैर को प्रभावशील तरीके से आयोजित कर इसे विश्वस्तरीय बनाने पर सहमति दी। जिला स्तरीय समिति की सदस्य डॉ. नमिता काटजू ने गैर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी दी। अंत में सभी का आभार समिति के सदस्य जयंत भिसे ने दिया।

इंदौर से अप्रैल में घट गए 39 हजार हवाई यात्री

इंदौर। इंदौर की एविएशन इंडस्ट्री के लिए अप्रैल का महीना अच्छा साबित नहीं हुआ। अप्रैल माह में इंदौर से हवाई यात्रियों की संख्या में 39 हजार से ज्यादा की कमी आई है। वहीं 160 उड़ानें भी कम हो गई हैं। इसके कारण एक बार फिर हवाई यात्रियों की संख्या 3 लाख से कम हो गई है। हवाई यात्रियों और उड़ानों की संख्या में हुई इस कमी का खुलासा एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 के बीच इंदौर से कुल 2,482 उड़ानों का संचालन हुआ। इन उड़ानों से कुल 2 लाख 95 हजार 665 यात्रियों ने सफर किया। जबकि मार्च में इंदौर से 2,642 उड़ानों का संचालन हुआ था, जिनसे 3 लाख 34 हजार 785 यात्रियों ने सफर किया था। इस तरह मार्च की तुलना में यात्रियों की संख्या 39,120 कम हुई है, वहीं 160 उड़ानें भी घटी हैं। ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमद्रसिंह जादौन ने बताया कि मार्च के दौरान प्रक्षीण खत्म हो जाने से यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। वहीं 1 अप्रैल से दोबारा स्कूल खुल जाने से पर्यटक घटे हैं। पर्यटकों के घटने का एक कारण गर्मी का बढ़ना भी है। हालांकि 1 मई से दोबारा स्कूलों की छुट्टियां शुरू हो जाने से उमीद है कि मई में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एविएशन एक्सपर्ट्स की मानें तो इस साल जनवरी से मार्च तक हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। यात्रियों की संख्या लगातार 3 लाख के ऊपर बनी हुई थी, लेकिन अप्रैल माह में उड़ानों और यात्रियों के घटने से यह संख्या 3 लाख के नीचे आई है। मार्च की तुलना में अप्रैल में 11.7 प्रतिशत यात्री और 6 प्रतिशत उड़ानें कम हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में जहां अक्रमर यात्री संख्या 11 हजार के पार जा रही थी, वहीं अप्रैल में 8 दिन ऐसे रहे, जब यात्री संख्या 10 हजार से भी कम थी। पूरे माह में सिर्फ दो दिन 7 और 21 अप्रैल को यात्री संख्या 11 हजार के पार पहुंची। ज्यादातर समय उड़ानों की संख्या भी 80 के आसपास ही बनी रही।

शुक्रवार को चलेगी इंदौर-हावड़ा स्पेशल ट्रेन


इंदौर। पश्चिम रेलवे ने लगातार तीसरे हफ्ते शुक्रवार को इंदौर से हावड़ा के बीच वीकली समर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को ट्रेन का नोटिफिकेशन जारी हो गया और शुक्रवार सुबह से रिजर्वेशन भी शुरू हो गया। पिछले दो फेरों में हावड़ा स्पेशल को कार्गो अच्छा प्रतिसाद मिलने के कारण लगातार तीसरे हफ्ते यह ट्रेन चलाई जा रही है। जानकारी का कहना है कि ट्रेन को गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए जून तक लगातार चलाना चाहिए। स्पेशल ट्रेन चलने से शिप्रा एक्सप्रेस पर दबाव कम होगा। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 09335 इंदौर-हावड़ा स्पेशल ट्रेन 3 मई को रात 10.30 बजे इंदौर से रवाना होगा और रिविंकार सुबह छह बजे हावड़ा पहुंचेगा। वापसी में ट्रेन नंबर 09336 हावड़ा-इंदौर स्पेशल ट्रेन हावड़ा से रिविंकार शाम 5.40 बजे चलकर मंगलवार रात 12.50 बजे इंदौर आएगी। ट्रेन में स्लीपर के 20, थर्ड एसी के दो कोच के अलावा सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। यह ट्रेन बगस्ता देवास, उज्जैन, शुजालपुर, संत हिरदारम नगर, विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मुवावा, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज च्यौकी, मिर्जापुर, पं. दीनदयाल उपाध्याय जं., सासाराम, डेहरी ऑन सोन, गया, कोडरमा, पारसनाथ, गोमो, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर और बर्धमान स्टेशनों पर ठहरेगी।

कई राज्यों के सटोरिए पकड़ाए

इंदौर। पीथमपुर और सागौर कुटी बॉर्डर पर पुलिस ने एक मकान पर छपा मारकर सट्टे का कंट्रोल रूम पकड़ा। यहां से कमरा भरकर सट्टा पच्ची, 40 मोबाइल और 16 सटोरिए पकड़े गए। प्रमुख सटोरिया महुला है तो कई राज्यों के सटोरिए भी पकड़े गए। ग्रामीण डीआईजी निमित्त अवाकाली को सूचना मिली थी कि सागौर थाना क्षेत्र में एक बड़ा सट्टे का सेंटर चल रहा है। इस पर उन्होंने यहाँ रेड करवाई। यहां पीथमपुर और सागौर कुटी की बॉर्डर पर एक मकान में यह अड्डा चल रहा था। प्रमुख सटोरिया दिनेश अग्रवाल महु का रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ से 15 और सटोरिए पकड़े गए। इनमें वाशिम, नागपुर (महाराष्ट्र), खरगोन, खंडवा सहित कई राज्यों के सटोरिए हैं। डीआईजी ने बताया कि ये लोग इंदौर और आसपास से सट्टे का कलेक्शन कर मुंबई में उतारा करते हैं। मुंबई के प्रमुख सटोरिए की भी जानकारी निकाली जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये लोग दो माह से यहां सट्टा संचालित कर रहे थे। इसके लिए किराए का मकान लिया था। ये तीन-तीन माह में जगह बदल लेते हैं। बताते हैं कि पुलिस ने जब यहां रेड की तो एक कमरा सट्टा पच्ची से भरा हुआ था। यह देखकर पुलिस दंग रह गई। पुलिस ने इनके पास से 40 मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए। डीआईजी का कहना है कि लाखों का कलेक्शन बैंक खातों से होता था। बैंक खातों की जानकारी निकाली जा रही है।

इंदौर। चुनावी आचार संहिता के दौरान केंद्र सरकार की सूर्योदय योजना को कुछ सोलर कंपनियों प्लॉप करने में जुट गई है। सोलर पैनलों की कमी का हवाला देकर उनके दाम प्रति वाट दो से तीन रुपये बढ़ दिए गए हैं, जबकि पैनलों की कमी नहीं है। शहर में उसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। इससे आवासीय लगने वाली सोलर यूनियन में आठ से दस हजार रुपये तक का इजाफा हुआ है।

देश में सोलर प्लांट लगाने के लिए लोग प्रेरित हो, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को सूर्योदय योजना लांच की थी। देश के एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने पर 18 हजार रुपये से लेकर 78 हजार रुपये की सबसिडी इस योजना के तहत दी जा रही है। सबसिडी के लिए जो कंपनियां अधिकृत हैं, उन्होंने पैनलों की कालाबाजारी शुरू कर दी है। इंदौर में 70 से ज्यादा वेंडर्स सोलर यूनिट लगाने



का काम करते हैं, लेकिन अभी उन्हें जो आर्डर मिले हैं, उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सोलर कारोबार से जुड़े हिमांशु जामले ने बताया कि सबसिडी वाली पैनलों की मार्केट में कालाबाजारी शुरू हो गई है। जो पैनल 20 से 22 रुपये प्रति वाट पहले मिलती थी। उसे अब 24 रुपये तक में कंपनियां दे रही हैं। इस कारण उपभोक्ता को पहले से ज्यादा राशि चुकाना पड़ रही है। इसके चलते कई आर्डर कैन्सल हो चुके हैं, जबकि पैनलों का कोई संकट नहीं है। मार्केट में योजना के कारण डिमांड बढ़ने के बाद कंपनियों ने लामबंद होकर कालाबाजारी शुरू कर दी है। इंदौर में अभी 40 हजार से ज्यादा घरों में सोलर पैनलों से बिजली पैदा हो रही है। अगर निगम ने भी इसके लिए अभियान चलाया है, हालांकि पैनलों के संकट के कारण वेंडर्स ने भी कदम पीछे हटा लिए हैं।

निगम का खटारा गाड़ियों को लेकर नया प्रयोग, 300 से ज्यादा गाड़ियों को करेंगे नीलाम

इंदौर। नगर निगम खटारा हूई 300 से ज्यादा हल्ल गाड़ियों के पार्ट्स निकालकर अन्य वाहनों में उपयोग किए जाएंगे। इन वाहनों की नीलामी की जाना है और कई दिनों से मामला उलझन में है। कई गाड़ियों के निकाले गए पार्ट्स वर्कशॉप विभाग में रखे जाएंगे, ताकि उनका उपयोग अन्य हल्ल गाड़ियों में किया जा सके। इसके अलावा ऐसी कुछ गाड़ियों का प्रयोग कर उन्हें नई शक्ल देकर छोटी गाड़ियों में तब्दील किया जाएगा। नगर निगम वर्कशॉप विभाग में इसके पहले भी कई प्रयोग हुए हैं और कोरोनाकाल के दौरान शहरभर में सेनेटाइजर के छिड़काव के लिए पुराने टैंकों का उपयोग कर उन्हें सेनेटाइजर छिड़कने वाले वाहन बना दिए थे। ऐसे करीब पांच से सात वाहन बनाए गए थे। इसके अलावा पुरानी कचरा गाड़ियों से कई अन्य गाड़ियां बनाने के प्रयोग करने के बाद अब खटारा हूई 300 से ज्यादा हल्ल गाड़ियों के लिए भी वर्कशॉप विभाग योजना बना रहा है। ऐसी गाड़ियों के महत्वपूर्ण पार्ट्स निकाल लिए जाएंगे, ताकि वे अन्य हल्ल गाड़ियों के काम आ सकें और कुछ बेहतर स्थिति वाली गाड़ियों

को नीलामी से हटाकर उन्हें छोटी कचरा गाड़ियां बनाने की तैयारी है। निगम के पास छोटी गलियों में कचरा उठाने वाले वाहन नहीं है और ऐसे सैकड़ों इलाकों में हल्ल गाड़ियां नहीं पहुंचने की दशा में सायकल रिक्शा से कचरा उठवाया जाता है। निगम के पास ऐसी 40 सायकल रिक्शा हैं। एट्रड्ड कंपनी द्वारा खटारा किए गए वाहनों के अलावा ऐसी कुछ गाड़ियां का प्रयोग कर उन्हें नई शक्ल देकर छोटी गाड़ियों में तब्दील किया जाएगा। नगर निगम वर्कशॉप विभाग में इसके पहले भी कई प्रयोग हुए हैं और कोरोनाकाल के दौरान शहरभर में सेनेटाइजर के छिड़काव के लिए पुराने टैंकों का उपयोग कर उन्हें सेनेटाइजर छिड़कने वाले वाहन बना दिए थे। ऐसे करीब पांच से सात वाहन बनाए गए थे। इसके अलावा पुरानी कचरा गाड़ियों से कई अन्य गाड़ियां बनाने के प्रयोग करने के बाद अब खटारा हूई 300 से ज्यादा हल्ल गाड़ियों के लिए भी वर्कशॉप विभाग योजना बना रहा है। ऐसी गाड़ियों के महत्वपूर्ण पार्ट्स निकाल लिए जाएंगे, ताकि वे अन्य हल्ल गाड़ियों के काम आ सकें और कुछ बेहतर स्थिति वाली गाड़ियों

इंदौर में एक युवती ने जहर पीकर जान दी, केस दर्ज कर जांच जारी आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो, पति को जिम्मेदार बताया

इंदौर। राऊ क्षेत्र में एक महिला ने जहर पीकर जान दे दी। वह अपने पति से परेशान थी। जहर पीने से पहले महिला ने पति को फोन लगाकर बताया कि वह आत्महत्या कर रही है। पति ने उससे कहा कि जैसा समझ आए करो। आत्महत्या से पहले उसने वीडियो बनाया और मौत के लिए पति को जिम्मेदार बताया। पुलिस ने वीडियो को जांच में शामिल किया है और पति से पूछताछ की।

राऊ निवासी पंकी राठौर की तीन माह पहले ही आत्माराम से शादी की थी, लेकिन वह पति से काफी परेशान थी। सुसाइड से पहले बनाए वीडियो में पंकी

ने कहा कि वह उसके पति की वजह से मर रही है। उसने मेरे साथ बुरी तरह मारपीट की। आत्महत्या के समय पंकी मायके में थी। जहर पीने के बाद वह बेहोश होने लगी तो उसकी मां उसे अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे भुत घोषित किया। पंकी के भाई ने कहा कि शादी के बाद से ही वह परेशान थी। उसका पति शराब पीता था और मारपीट करता था। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पंकी का मोबाइल भी जब्त किया है। परिजनों ने बताया कि पंकी के जहर खाने की खबर उसके पति व ससुरालवालों को दी, लेकिन कोई भी उसे देखने नहीं आया।

निगम ड्रेनेज घोटाला - भगोड़े निगम इंजीनियर के ठिकानों पर पुलिस ने मारे छापे

इंदौर। नगर निगम ने 188 फाइलों की विभागीय जांच भी लगभग पूरी कर ली है, जो आज-कल में सामने आ जाएगी। मुख्य रूप से ऑडिट विभाग के जरिए इस महघोटाले को अंजाम दिया गया और निगम इंजीनियर व कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी फाइलें तैयार की गईं। पहले असल काम की छोटी फाइलों को मंजूर करवाया गया, ताकि ऑडिट के साथ लेखा विभाग का भरोसा जीता जा सके। उसके बाद बड़े कामों की बोगस फाइलों को चलाकर निगम को करोड़ों रुपये की टोपी पहनाई गई। दूसरी तरफ पुलिस ने भगोड़े निगम इंजीनियर अभय राठौर की तलाश तेज कर दी और घर सहित उसके अन्य ठिकानों पर भी छापे मारे, वहीं उसके बैंक खाते भी सील कर दिए हैं। अभी जो गिरफ्त में फर्जी फर्मों के ठेकेदार आए हैं, उनमें से राहुल वड्डेरा ने यह तो स्वीकार कर लिया कि फर्जी फाइलें बनाई गईं, जिनमें हस्ताक्षर भी फर्जी किए गए, वहीं दो और नई फर्मों का भी खुलासा किया गया। इन फर्मों के नाम क्रिस्टल और ईश्वर बताए गए हैं और निगम रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 8 करोड़ का पेमेंट इन दोनों फर्मों को भी किया गया।

अभी तक 188 फाइलों में कुल 107 करोड़ रुपये की राशि शामिल बताई गई है, जिसमें से 178 फाइलें सिर्फ ड्रेनेज विभाग से ही संबंधित हैं, जिनमें 102 करोड़ रुपये की बड़ी राशि शामिल है। नगर निगम अभी तक इनमें से लगभग 80 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है। हालांकि पुलिस 48 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर चुकी है, क्योंकि निगम ने 28 करोड़ रुपये की 20 बोगस फाइलों की एफआईआर दर्ज करवाई और उसके बाद लगभग 20 करोड़ रुपये की अन्य फाइलें निगम ने अपनी जांच के दौरान जब्त की हैं। झोन-3 के डीसीपी पंकज पांडे ने राहुल वड्डेरा की फॉर्च्यूनर गाड़ी की जबती भी करा ली, जिसका खुलासा अग्निबाण ने किया था। दूसरी तरफ पांडे के मुताबिक दो और फर्जी फर्मों की जानकारी राहुल वड्डेरा से मिली है। अब इनके बारे में नगर निगम से जानकारी ली जाएगी। दूसरी तरफ ठेकेदारों के साथ लेखा शाखा में पदस्थ रहे

राजकुमार सालवी से भी पूछताछ की जा रही है कि किस तरह बोगस फाइल बनाकर भुगतान हासिल किया जाता था। पांडे के मुताबिक 70 से 80 फीसदी राशि निगम इंजीनियरों, कर्मचारियों व अन्य को इन ठेकेदारों द्वारा बांटना भी कबूल किया है, वहीं दो नई फर्मों क्रिस्टल और ईश्वर की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस ने इस पूरे महघोटाले के मास्टरमाइंड निगम के इंजीनियर अभय राठौर को भी आरोपी बनाया है। मगर घोटाला उजागर होते ही वह फरार हो गया। पुलिस ने उससे संबंधित ठिकानों पर छापे डाले। मगर वह हाथ नहीं आया। लिहाजा उसकी चल-अचल सम्पत्तियों की जानकारी निकालने के साथ-साथ खाते भी सील किए गए हैं। इधर, सूत्रों का कहना है कि लेखा शाखा के जिस बाबू राजकुमार सालवी को पुलिस ने आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया। उससे भी पूछताछ की जा रही है, वहीं निगम सूत्रों का कहना है कि फर्जीवाड़ा कर करोड़ों का भुगतान लिया गया हो। इसकी भी जानकारी लेखा विभाग द्वारा तैयार की जा रही है। दूसरी तरफ निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने इस घोटाले के उजागर होने के साथ ही विभागीय जांच शुरू करवा दी। इस जांच दल के प्रमुख अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन का कहना है कि जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है। आज-कल में इसे अंतिम रूप देकर आयुक्त को सौंप दिया जाएगा। जैन के मुताबिक बोगस बिलों की फाइलें निगम से बाहर ही तैयार की गईं और इन्हें सीधे ऑडिट में लगा दिया, जहां से घनघोर लापरवाही हुई और पास फॉर पेमेंट करते हुए लेखा शाखा में भिजवा दिया, जहां से समय-समय पर इन बोगस बिलों की फाइलों का भुगतान भी होता रहा। यही कारण है कि ऑडिट शाखा में पदस्थ जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए शासन को पत्र आयुक्त की ओर से भिजवाया गया है। साथ ही अभी जो नई और फर्मों की जानकारी सामने आई है उसकी भी पड़ताल की जा रही है।

भाजपा ने सभी वरिष्ठ नेताओं को हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का आंकड़ा थमाया

इंदौर। भाजपा एकतरफा मुकाबला होने के बावजूद मैदान में उठे रहना चाहती है। बूथों पर मतदान का प्रतिशत बढ़े और भाजपा का वोट बैंक भी इसके लिए इंदौर लोकसभा के सभी सवा दो हजार से अधिक बूथों पर प्रमुख कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को जवाबदारी सौंपी गई है। भाजपा ने इंदौर लोकसभा से 8 लाख वोटों से जिताने का लक्ष्य रखा है। हालांकि अब कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी मैदान से हटने के बाद मुकाबला तो एकतरफा हो गया है, लेकिन भाजपा इस मौके को यू ही नहीं गंवाना चाहती। भाजपा ने अब तैयारियों और तेज कर दी है।

संगठन पहले से ही प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और इसके लिए भाजपा नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है। इंदौर लोकसभा में कुल 2 हजार 226 मतदान केंद्र हैं। इसमें 590 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र के भी शामिल हैं। इन सभी बूथों पर प्रभारियों की एक सूची तैयार की गई है। कोई भी नेता छोटा हो या बड़ा, उसे अपने क्षेत्र के बूथ पर जाकर 370 वोट आवश्यक रूप से बढ़ाना है। भाजपा कार्यलय में बने दीनदयाल भवन से सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके बूथों की जानकारी का पत्रक दिया गया है।

जिसमें गत लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को कितने वोट मिले, इसकी जानकारी दी गई है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को मिले वोट शेयर की जानकारी भी साझा की जा रही है, ताकि वे अपना टारगेट तय कर सकें। इसके पहले ऐसे बूथों की जानकारी भी निकाली गई है, जहां से भाजपा को कम वोट मिलते हैं, वहां पहले ही भाजपा नेताओं को काम करने के लिए कह दिया गया है। अब देखा यह है कि एकतरफा मुकाबले में इतनी कसरत कर भाजपा 8 लाख वोटों से जितने का लक्ष्य प्राप्त कर पाती है या नहीं?

नोटा पर बटन दबवाने के लिए घर-घर पहुंचेगी कांग्रेस

इंदौर। पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद अब कांग्रेस ने नोटा के विकल्प को पूरी ताकत से जनता के सामने ले जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए घर-घर संपर्क की तैयारी है। इसके लिए सोशल मीडिया पर आक्रामक कैपेन के साथ ही विधानसभा क्षेत्रवार रैली भी निकली जाएगी। पिछले दो दिन में इंदौर में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तीन बैठक इस बारे में हो चुकी है। बुधवार सुबह हुई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा और शोभा ओझा के साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष अमन बजाज, विपिन गंगवाल, शेख अलीम, राजू भदौरिया, संतोष गौतम तथा आईटी सेल के पदाधिकारी और सोशल मीडिया कैपेन के एक्सपर्ट्स की बैठक हुई। इसमें अलग-अलग स्तर पर चलाए जाने वाले कैपेन पर विस्तार से बात हुई। लोगों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। शोभा ओझा के निवास पर वर्मा, अधिन जोशी नगर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा और पूर्व अध्यक्ष विनय बाकलीवाल फिर बैठे और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई तो यह हुआ है कि सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर पार्टी नोटा में ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने के लिए

एक कैपेन चलाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने के लिए पोस्टर-बैनर और हॉर्डिंग बनवाए जा रहे हैं। इन्हें अलग-अलग क्षेत्रों में लगवाया जाएगा। जनता से नोटा में मतदान के लिए आग्रह से संबंधित जो प्रचार सामग्री बनवाई जा रही है, उसके कंटेंट के लिए कुछ विशेषज्ञों से भी मदद ली जाएगी। कांग्रेस की तैयारी नुकड़ ग्रामीणों, विधानसभा क्षेत्रवार रैली और 10 तारीख के आसपास एक बड़ी रैली निकालने की भी है। पार्टी अपने बूथ सेक्टर और मंडलम स्तर के पदाधिकारी से भी बातचीत कर घर पहुंच अभियान प्रारंभ करेगी। इस अभियान के लिए पेंफ्लेट विशेष तौर पर डिजाइन करवाए जा रहे हैं, जिसे घर-घर पहुंचाने की योजना है। कांग्रेस का प्रयास है कि शहर में जितने वोट हर लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिलते हैं, इसका एक बड़ा प्रतिशत नोटा में ही जाए। पार्टी के नेता यह भी मान रहे हैं कि कुछ लोग तो वोट डालने के लिए निकलेगी ही नहीं और कुछ प्रतिशत वोट बैंक में भाजपा संघ भी लगा सकती है। इसे रोकने की रणनीति पर भी विचार हुआ। गुरुवार को इस बारे में फिर एक बैठक होगी।

गायब है जिला अध्यक्ष

जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सदाशिव यादव इन दोनों परिदृश्य से बाहर हैं। वे पिछले तीन-चार दिन से कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी की बैठकों में उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के पार्टी के नेता ही अपने अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं।

टंडन ने पल्ला झाड़ा पटवारी से कहा- अब आप ही देखो

कांग्रेस के चुनाव संचालक प्रमोद टंडन ने भी चुनाव से पहले झाड़ लिया है। मंगलवार को हुई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की पत्रकार वार्ता में अपने साथ हुए व्यवहार से आहत टंडन वहां से चले गए थे। अगले दिन सुबह जब प्रदेश एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने उनसे संपर्क किया और आगे की रणनीति पर बैठकर बात करने को कहा तो उन्होंने कहा कि अब यह काम आप ही लोग संभालो। मैं मदद नहीं कर पाऊंगा।

प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर: मौसम विभाग की चेतावनी - गर्म हवाओं और सूरज की चुमन से बढ़ेगी परेशानी

इंदौर। मध्यप्रदेश में बारिश और बादल का दौर खत्म हो गया है। अप्रैल में भी कई जिलों में बूटाबादी हो रही थी। बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों में लोगों ने तेज गर्मी को महसूस किया। मौसम विभाग के मुताबिक अब प्रदेश में अगले कुछ दिन गर्मी अपना प्रभाव दिखाएगी। मई के पहले दिन लगभग सभी जिलों में गर्म हवाएं चलीं और लोग सूरज की चुमन से परेशान रहे। मंगलवार और बुधवार के दिन प्रदेश के सभी संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। ग्वालियर संभाग के जिलों में तापमान थोड़ा कम हुआ शेष सभी संभागों के तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। ग्वालियर, शहडोल संभागों के जिलों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखी गई। मंगलवार को प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.4 एचरीवा में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.0 एच दतिया में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अब प्रदेश में बादल और बारिश का दौर खत्म हो गया है और गर्मी तेज पड़ने वाली है। प्रदेश में गुरुवार को कई जिलों में लू चलने की भी संभावना है। सागर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मंडला, बालाघाट, बुरहानपुर, बैतूल, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, खण्डवा, खरगोन में गर्मी के चलते लोगों को परेशानी हो सकती है।

एमपी में 8 दिन चलेगी हीट वेव, 10 से 17 मई के बीच भीषण गर्मी का अनुमान

प्रदेश में मई के महीने में 5 से 8 दिन हीट वेव, यानी गर्म हवाएं चलेंगी। प्रदेश के पूर्वी हिस्से के अलावा ग्वालियर-चंबल में असर ज्यादा रहेगा। वहीं, 10 से 17 मई के बीच और महीने के आखिरी दिनों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। आईएमडी (भारत मौसम विज्ञान विभाग) ने यह अनुमान जताया है। मई में प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश भी हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से ऐसा होगा।

प्रमुख शहरों का तापमान

इंदौर	- 39.2
भोपाल	- 39.7
जबलपुर	- 40
ग्वालियर	- 38.3

संपादकीय

सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति का आचरण बहुत मायने रखता है। मगर विचित्र है कि बहुत सारे राजनेता इस तकाजे का ध्यान रखना जरूरी नहीं समझते। कर्नाटक में हसन सीट से जनता दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। उन पर करीब तीन हजार महिलाओं का यौन शोषण करने, उन्हें धमकाने और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप हैं।

उनके दुराचार के वीडियो सार्वजनिक हूए और मामला तूल पकड़ने लगा तो उसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष जांच दल गठित कर दिया। जांच दल का गठन होते ही रेवन्ना देश छोड़ कर भाग गए। बताया जा रहा है कि वे यहां से सीधे जर्मनी गए और वहां से यूरोप के किसी देश में छिप गए हैं। इस बार रेवन्ना भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे। इसलिए विपक्षी दलों ने न केवल

जद (सेकु), बल्कि भाजपा और प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस राजनीतिक विवाद के बीच जद (सेकु) की कोर समिति ने रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया है। मगर लगता नहीं कि इतने भर से जद (सेकु) और भाजपा को कोई राहत मिलने वाली है, क्योंकि रेवन्ना पर लगे आरोप बहुत गंभीर और महिलाओं के सम्मान से जुड़े हैं। हालांकि रेवन्ना ने सार्वजनिक हूए सारे वीडियो को फर्जी और साजिश के तहत तैयार किया बताया है। बताया जा रहा है कि चुनाव से कुछ दिनों पहले ये वीडियो पेन ड्राइव में भर कर बड़ी तेजी से लोगों के बीच फैलाए जाने लगे। मगर मामले पर कानूनी कार्रवाई के लिए कदम तब उठाया गया जब रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक अथेड सहायिका ने उसके और उसके पिता के खिलाफ आरोप लगाया। प्रज्वल रेवन्ना के पिता भी



जद (सेकु) से विधायक हैं। हालांकि इन मामलों के बारे में जानकारी लोगों को बहुत पहले से थी। भाजपा के एक नेता ने तो कहा है कि उन्हें एक वर्ष पहले ही ये वीडियो उपलब्ध हो गए थे और उन्होंने रेवन्ना को चुनावी टिकट देने से केंद्रीय समिति को रोका था, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। यह भी जानकारी आई है कि रेवन्ना खुद करीब एक वर्ष पहले इसी मामले में अदालत से स्थगन आदेश ले आए थे। यानी मामला बिल्कुल ताजा नहीं है। हैरानी की बात है कि न केवल इस प्रकार के दबा-छिपा कर रखा गया, बल्कि रेवन्ना को फिर से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया गया।

यह बेहद भयावह है कि रेवन्ना ने किसी भी आयु और वर्ग की महिला को नहीं बख्खा। घरेलू सहायिकाओं, सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर हर तरह की महिलाओं

का यौन शोषण किया। वे खुद इसलिए अपनी धिनौनी हरकत का वीडियो बनाते थे, ताकि उनके आधार पर वे उन महिलाओं को डरा-धमका कर चुप रहने को बाध्य कर सकें। हालांकि यह किसी राजनेता या रसूखदार व्यक्ति का पहला और अकेला मामला नहीं है, मगर चिंताजनक बात यह है कि एक व्यक्ति खुद सांसद रहते हुए ऐसा वीथिस कृत्य कर रहा था। राजनेता सार्वजनिक मंचों से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बातें करते नहीं थकते, मगर जब उन्हीं के बीच ऐसा कोई व्यक्ति नजर आने लगता है, तो उसे बचाने या ढंक-छिपा कर रखने का प्रयास करने लगते हैं। अब देखना है कि केंद्र और राज्य सरकार किस तरह मामले की निष्पक्ष जांच कराती तथा रेवन्ना को वापस लाकर उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करती है।

नीति- निर्देश के अभाव में देश के युवाओं को बर्बाद करता डोडा चूरा

हरनाम सिंह

किसान हो रहे हैं प्रभावित

अफीम और उसके सह उत्पाद स्मैक, हीरोइन की तस्करी में लिस मंदसौर संसदीय क्षेत्र की ख्याति अंतरराष्ट्रीय जगत में रही है। किसी काल में इंधन के रूप में उपयोग आने वाला -डोडा चूरा- एक अनुसूचणी पहली के रूप में क्षेत्र को ही नहीं देश को भी प्रभावित कर रहा है। इसके प्रभाव क्षेत्र के दायरे में देश के कई राज्य हैं। मंदसौर संसदीय क्षेत्र के अफीम उत्पादक किसान, यहाँ की राजनीति, कथित धार्मिक संगठन उनका नेतृत्व, सामाजिक गतिविधियाँ, अर्थ तंत्र भी शामिल हैं। शासन स्तर पर डोडा चूरा के निस्तारण की कोई भी नीति न होने के कारण डोडा चूरा की तस्करी में अफीम उत्पादक किसानों सहित कई राजनेता, नौकरशाह, एवं बेरोजगार युवा आकट डूबे हैं।

अफीम और उसके रसायन प्राप्त करने की नई नीति के तहत सीपीएस प्रणाली अपनाएने वाले किसानों से तो नारकोटिक्स विभाग डोडा खरीद लेता है। जो किसान डोडा में चीरा लगाकर अफीम निकालते हैं उनके पास डोडा चूरा बचा रहता है। इसे किसान बेच नहीं सकते। नशे के इस लोकप्रिय साधन पर तस्करी की नजर रहती है। डोडा चूरा के निस्तारण के बारे में न तो केंद्र और नहीं राज्य सरकार कोई नीति बना रहा है। इसका परिणाम देश की युवा पीढ़ी भ्रुगत के लिए अभिशाप है। क्षेत्र की जेले डोडा चूरा तस्करी के आरोपियों से भारी पड़ी है। चुनाव के वर्तमान माहौल में समाज के विवेकवान लोगों को राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर इस समस्या पर विचार करने की जरूरत है। वर्ष 2015 से पहले तक प्रदेश का आबकारी विभाग डोडा चूरा खरीदने व बेचने के लिए लाइसेंस जारी करता था। राज्य सरकार को इससे करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता था। देश के कई राज्यों में इस नशे को बेचने की दुकानें थी। वैधानिक तरीके से इस नशे का सेवन होता था। हालांकि हर तरह का नशा निंदनीय है, लेकिन डोडा चूरा के नशे को कम हानिकारक माना गया है। शराब के मुकाबले डोडा चूरा का सेवन करने वाले किसी शख्स को कभी भी हुड्डा मचाते, मारपीट, हिंसक गतिविधियों में लिस नहीं पाया गया है।

अमेरिकी कानून की नकल के रूप में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एनडीपीएस एक्ट (मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम) के तहत अफीम को पूरे पौधे (खसखस को छोड़कर) को अधिनियम अंतर्गत रखा गया है। एक्ट के अनुसार संपूर्ण पौधे का उपयोग केवल चिकित्सकीय और वैज्ञानिक शोध के लिए ही हो सकता है। इसके दायरे में डोडा चूरा भी आता है। सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव आया तो उसने डोडा चूरा के व्यवसाय पर रोक लगा दी। उल्लेखनीय है कि डोडा चूरा में 0.2 प्रतिशत मॉर्फिन होता है।

दिव्यांगों के लिए बनाए जा रहे मतदान बूथ पर अत्यवस्थाओं का अम्बार

इंदौर। जिले की 9 विधानसभा में दिव्यांगों द्वारा संचालित मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। हालांकि सांवेर और देपालपुर में 9 अधिक होने के कारण दिव्यांग बूथ नजर नहीं आएंगे। इंदौर विधानसभा क्षेत्र में नौ विधानसभाओं के लिए अलग-अलग दिव्यांग बूथ बनाने के निर्देश

सामाजिक न्याय विभाग को दिए गए हैं। कल टीम ने बूथों का दौरा किया। यहाँ कई केंद्रों पर रैप ही नहीं नजर आए तो कई जगह पर परिसर दिव्यांग फ्रेडली नहीं मिला। सामाजिक न्याय विभाग की सुचिता तिकी बेग ने विभागीय अमले के साथ उन स्कूलों का दौरा किया, जहाँ दिव्यांग बूथ बनाए जाने हैं। ज्ञात हो

कि इंदौर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए महिला, यूथ व पिक बूथ के साथ-साथ मतदान केंद्रों पर छंव, पानी, कूलर और पंखे की व्यवस्था भी की जा रही है। जिले में लगभग 12000 से अधिक दिव्यांग मतदाता हैं। इन मतदाताओं के लिए 100 से अधिक दिव्यांगों को ड्यूटी पर लगाया गया है।

गोदाम सील, फिर भी भारी मात्रा में विस्फोटक भर दिया

इंदौर। पटाखा फैक्ट्रियों पर नकेल कसने की तैयारियों में एक अजब-गजब मामला प्रकाश में आया है। गोदाम मालिक ने एडीएम कार्यालय में गुहार लगाई है कि उसने दस साल पहले गोदाम बेच दिया था, लेकिन अब उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक भरा होने के कारण मुझ पर कार्रवाई की जा रही है। हद्द में हुए पटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद प्रदेशभर में पटाखा दुकान, गोदाम और फैक्ट्री को लेकर सघन निरीक्षण की कार्रवाई की जा

रही है। जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों के लाइसेंस की जांच कर वहाँ नियमों के अनुसार सुरक्षा के मापदंडों की जांच परख की जा है। निरीक्षण के दौरान तहसील बिचौली हप्पी अंतर्गत ग्राम मोरोद ने भागचंद पिता भादोमल के मालिकाने के नाम से पटाखा गोदाम को लाइसेंस सामने आया है। उक्त गोदाम के परीक्षण में नियमों की पूर्ति नहीं होने के साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं मिले थे, जिसके चलते एडडीएम कार्याणी

पांडे ने गोदाम को सील कर दिया था। हाल ही में महु तहसील के ग्राम आम्बाचंदन में हुए हादसे के बाद फिर से परीक्षण की कार्रवाई शुरू हुई तो गोदाम संचालक ने अचानक कलेक्टर के समक्ष आवेदन देकर कहा कि मोरोद स्थित गोदाम को में दस साल पहले ही बेच चुका हूँ। पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा फरवरी माह में उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। अब अखबारों में सामग्री कैसे पहुंची भी

है कि उक्त गोदाम में भारी मात्रा में पटाखा व विस्फोटक सामग्री रखी हुई है, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, उसने एडीएम कार्यालय में लिखित आवेदन देते हुए गोदाम में रखे माल को नष्ट करवाए जाने की गुहार लगाई है, वहीं जांच अधिकारियों का इसमें कहना है कि गोदाम संचालक द्वारा दिए गए आवेदन की भी सघन जांच कराई जाएगी कि गोदाम सील होने के बावजूद भी वहाँ विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची भी

रेवन्ना के खिलाफ उचित कार्रवाई की जरूरत

मतदान पर्ची नहीं मिली तो करो शिकायत, इनाम में मिलेगी दो फ्री मूवी टिकट

इंदौर। आयोग बीते कई चुनावों से घर-घर मतदाता पर्चियों का वितरण भी करवा रहा है। पहले यह पर्चियां राजनीतिक दलों द्वारा बंटवाई जाती थी। इस बार भी इंदौर जिले में लोकसभा चुनाव के लिए 4 से 8 मई की अवधि में घर-घर जाकर इन मतदाता पर्चियों का वितरण बीएलओ के जरिए कराया जा रहा है। 25 लाख से अधिक मतदाता पर्चियां बंटेंगी और अगर किसी को यह पर्ची नहीं मिलती है तो इसकी सूचना देने पर इनाम स्वरूप मूवी के के दो टिकट मुफ्त जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरी तरफ चलें बूथ की ओर अभियान की शुरूआत भी कल से की गई।

आयोग के आदेश अनुसार प्रत्येक मतदाता को उसकी मतदाता सूची प्रविष्टि की जानकारी एवं मतदान केन्द्र का विवरण दर्शाते हुए मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ द्वारा मतदाता के निवास पर जाकर उपलब्ध कराई जाती है। जिला निर्वाचन

अधिकारी एवं कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बताया है कि इंदौर जिले के समस्त मतदाताओं को लोकसभा निर्वाचन के लिये मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ द्वारा 04 से 08 मई की अवधि में मतदाताओं के निवास पर जाकर वितरित की जायेगी। सभी मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची वितरण के लिये जिले के समस्त बीएलओ को पारबंद किया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उनको निर्धारित अवधि तक मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ द्वारा उनके निवास पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ऐसे मतदाता जिन्हें मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं हुई है अपना नाम, मोबाइल नं. विधानसभा क्षेत्र एवं मतदान केन्द्र की जानकारी के साथ अपनी शिकायत व्हाट्सएप अथवा दूरभाष पर दर्ज करा सकते हैं। यह सूचना जिले की निर्वाचन हेल्पलाइन व्हाट्सएप नम्बर 9399338398 या लैडलाइन नम्बर 0731-2470104,

0731-2470105 पर 10 मई को दर्ज कराई जा सकती है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर एवं बीएलओ द्वारा मतदाता सूचना पर्ची वितरण नहीं किया जाना पाये जाने पर संबंधित बीएलओ के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। सही सूचना देने वाले मतदाताओं को इन्दौर शहर के सिनेमा थियेटर में फिल्म देखने के लिये दो फ्री मूवी टिकट पारितोषिक स्वरूप दिये जायेंगे। चलें बूथ अभियान के तहत मतदाता सूची का वाचन और पर्चियों का वितरण होगा। तीसरे चरण में प्रदेश के नौ लोकसभा क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होगा है। इसके अंतर्गत आने वाले 20 हजार 456 मतदान केंद्रों पर एक मई से यह अभियान चलाया जाएगा। इसमें बैतूल, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। चौथे चरण में प्रदेश के आठ लोकसभा क्षेत्रों में 13 मई को मतदान होगा है।

भाजपा महिला मोर्चा द्वारा 1 से 12 मई तक चलाया जाएगा नारी शक्ति ने ठाना है मोदी जी को जिताना है अभियान

अभियान के अंतर्गत महिलाओं को दिलाई जाएगी देश हित में वोट देने की शपथ

इंदौर। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवादी और जिम्मेदार राजनीतिक दल है और अपने सिद्धान्त अनुरूप हमेशा नवाचार करने का प्रयास करती है। इसी कड़ी में इन्दौर शहर की नारी शक्ति को मतदान हेतु प्रेरित करने एवं उनके सहयोग से देश में इंदौर को मतदान में भी इतिहास रचने के प्रयास हेतु %नारी शक्ति ने ठाना है मोदी जी को जिताना है% अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है।

इस अभियान के तहत 1 मई से

12 मई तक निरंतर इन्दौर शहर में आयोजन किये जाएंगे जहाँ महिलाएं बड़ी संख्या में सम्मिलित होंगी। ऐसे सम्मेलन, मीटिंग्स, भजन मंडली, स्व सहयता समूह, मल्टी, सोसाइटी जहाँ भी नारी शक्ति एकत्रित हो रही है वहाँ उनको उनके अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक कर मतदान की शपथ दिलाकर मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। एक भी महिला अगर मतदान करती है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार भी मतदान करता है। इसके

साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से इस भी अभियान को हर एक महिला तक पहुँचाने का एक अभिनव प्रयास महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा।

इस अवसर पर गौरव रणदिवे, नगर महामंत्री एवं महिला मोर्चा प्रभारी श्रीमती सविता अखंड, श्रीमती जूही भार्गव, श्रीमती रचना गुप्ता, डॉ. दीप्ति हाडा, पार्षद श्रीमती शिखा दुबे, श्रीमती बरखा मालु शाहिद बड़ी संख्या में महिला मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रही।

पशुओं को लू से बचाया जाये, पशु चिकित्सा विभाग ने जारी किये परामर्शी सुझाव

इंदौर। गर्मियों को देखते हुए पशु चिकित्सा विभाग ने कहा है कि पशुओं को लू से बचाया जाये। इसके लिए विभाग द्वारा परामर्शी सुझाव जारी किये गये हैं। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि पशुओं के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। पशुओं हेतु भी छत में पानी का बर्तन रखे व दिन में उसे भरते रहे। पशुओं को पर्याप्त छायादार स्थान उपलब्ध कराए। पशुओं को रखने एवं बांधने का स्थान, स्वच्छ, हवादार एवं रोशनदान युक्त हो यह सुनिश्चित किया जाये।

लू लगने की स्थिति में पशुओं में पाए जाने वाले लक्षण

पशुओं के शरीर का तापमान 41 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। पशुओं की चाल सुस्त हो जाती है एवं खाना पीना छोड़ देते हैं। पशु जीभ बाहर निकाल कर कठिनाइयों से सांस लेता है एवं पशु बेहोश भी हो सकता है। अगर उपरोक्त लक्षण अपने पशुओं में दिखाई दे, तो नजदीकी पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक से संपर्क किया जा सकता है।

लू से बचाव हेतु सुझाव

पशुओं के रहने का स्थान हवादार हो और दोपहर में ग्रीन जाली से ढक देना चाहिए। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी देना चाहिए एवं पशुओं के ऊपर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। व्यवसायिक एवं खेती में काम आने वाले पशुओं से दोपहर तेज धूप में काम ना लिया जाये।

आपकी शिकायत/समस्याओं में आपका साथी

दैनिक सदभावना पाती

शिकायत / पत्र संपादक के नाम

आप किसी समस्या, शिकायत, सुई, जानकारी, गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, नियम विरुद्ध काम आदि की शिकायत संपादक के नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं।

सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल में सीएम हेल्पलाइन 181 एप डाउनलोड करें

और उस पर शिकायत उपरांत हमें उसका स्क्रीन शॉट और फोटो भेजें।

हम उस शिकायत को दैनिक सदभावना पाती में प्रकाशित करेंगे और आपकी समस्या/शिकायत को शीघ्र स्वस्थ करने का प्रयास करेंगे।

केवल व्हाट्स एप करें, कॉल न करें।

9685611304

ईमेल आईडी- reporter.spnews@gmail.com

नोट :- जनहित की समस्याओं पर उचित इनाम भी दिया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में अप्रैल में साढ़े तीन साल में दूसरा सबसे तेज सुधार



नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधि अप्रैल में धीमी रही लेकिन फिर भी परिचालन स्थितियों में साढ़े तीन साल में दूसरा सबसे तेज सुधार दर्ज किया गया जिसे बढ़ती मांग का समर्थन मिला। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक अप्रैल में घटकर 58.8 हो गया जो मार्च में 59.1 था। पीएमआई के तहत 50 से ऊपर सूचकांक होने का मतलब उत्पादन गतिविधियों में विस्तार है जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को दर्शाता है। एचएसबीसी के मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा कि मजबूत मांग की स्थिति के कारण उत्पादन में और वृद्धि हुई, हालांकि मार्च की तुलना में यह वृद्धि थोड़ी धीमी रही। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय विनिर्माताओं ने अप्रैल में घरेलू और बाहरी ग्राहकों से अपने माल की मजबूत मांग की सूचना दी। कुल नए ठेके में तेजी से वृद्धि हुई है और विस्तार की गति 2021 की शुरुआत के बाद से दूसरी सबसे मजबूत रही। इसके अलावा, अप्रैल में नए निर्यात ठेकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यद्यपि कुल विक्री की तुलना में यह वृद्धि धीमी रही, जिससे पता चलता है कि घरेलू बाजार वृद्धि का मुख्य चालक बना रहा। सामग्री और श्रम लागत में वृद्धि की खबरों के बीच भारतीय विनिर्माताओं ने अप्रैल में अपने विक्रय मूल्यों में वृद्धि की। भंडारी ने कहा, "कीमत की बात करें तो कच्चे माल और श्रम की उच्च लागत के कारण कच्चे माल की लागत में मामूली वृद्धि हुई है लेकिन मद्रास प्रति प्रतिहासिक औसत से नीचे बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हालांकि, कंपनियों ने उत्पादन शुल्क बढ़कर इस वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दिया, क्योंकि मांग मजबूत बनी रही जिसके परिणामस्वरूप मुनाफे में सुधार हुआ।

महार प्रतिशत कंपनी आरईसी के शेयर ने मरी उड़ान, दो दिन में 20 फीसद उछला

नई दिल्ली, एजेंसी। आरईसी के शेयर एक बार फिर उड़ान भरने लगे हैं। एक साल में यह स्टॉक एक लाख के निवेश को 4 लाख से अधिक कर दिया है। आज भी यह 8 फीसद से अधिक ऊपर चढ़ चुका है। सुबह 513 रुपये पर खुलकर यह 555.70 रुपये पर पहुंच गया। यह इसका 52 हफ्ते का हाई है। इसका 52 हफ्ते का लो 127.40 रुपये है। आरईसी के शेयरों में यह उछाल कंपनी द्वारा चौथी तिमाही की आय की घोषणा के बाद आया है। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपये हो गया है। आरईसी ने मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। फर्म के बोर्ड ने 5 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की भी घोषणा की। महज दो दिन में यह स्टॉक 20 फीसद से अधिक का रिटर्न दे चुका है। जबकि, पिछले एक महीने में 18.50 फीसद। इस साल अबतक यह 30 फीसद चढ़ चुका है। मार्च 2008 में इसके एक शेयर का भाव केवल 42.17 रुपये था। अबतक यह 1200 से अधिक का रिटर्न दे चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने तीसरी तिमाही में 56 करोड़ रुपये के खर्च की तुलना में चौथी तिमाही में 711.9 करोड़ रुपये के प्रोविजन को राइट-बैक किया, जिससे टैक्स के बाद उसके प्रॉफिट में सहायता मिली। इस बीच इसकी कुल आय पिछले साल के चौथी तिमाही में 10,254.63 करोड़ रुपये से बढ़कर 24 के चौथी तिमाही में 12,706.66 करोड़ रुपये हो गई। दूसरी ओर, शुद्ध ब्याज से इनकम साल-दर-साल 25.4 प्रतिशत बढ़कर 4,273 करोड़ हो गई है।

UGC-NET postponed to June 18 to avoid clash with UPSC preliminaries - UGC Chairman

The National Eligibility Test (NET) has been rescheduled to avoid a clash with the UPSC preliminary exam and will now be conducted on June 18, UGC Chairman Jagadish Kumar announced on April 29. Earlier, the exam was scheduled to be held on June 16.

"The National Testing Agency and UGC have decided to shift the UGC-NET from 16 June (Sunday) to 18 June 2024 (Tuesday) because of feedback received from candidates about



the exam clashing with UPSC prelims. NTA will conduct UGC-NET in OMR mode across India on a single day," Mr. Kumar said.

UGC-NET is an exam to determine the eligibility of Indian nationals for the "award of Junior Research Fellowship and appointment as assistant professor", "appointment as assistant professor and admission to PhD" and "admission to PhD only" in Indian universities and colleges.

इनकम टैक्स पेपर में डाटा मिसिंग वाला प्रश्न अटैंड करने पर विद्यार्थियों मिलेंगे अंक

इंदौर। बीकॉम अंतिम वर्ष के इनकम टैक्स पेपर में डाटा मिसिंग प्रश्न पर परीक्षा समिति ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को रिपोर्ट सौंप दी है। उसके आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों को बोनस अंक देने का फैसला लिया है। मगर छात्र-छात्राओं को अंक कितने दिए जाएंगे यह कौंपी जांचने वाले मूल्यांकनकर्ता पर छोड़ दिया है। अधिकारियों के मुताबिक विद्यार्थी ने प्रश्न कितना प्रतिशत हल किया है। उस पर अंक देना तय होगा। यह सुनिश्चित करने का काम मूल्यांकनकर्ता को दिया है। 15 अप्रैल को सुबह 7 से 10 बजे तक बीकॉम अंतिम वर्ष के मेजर विषय का पहला पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का हुआ। 8 अंक वाले एक प्रश्न में कुछ डाटा नहीं छाया। विद्यार्थियों ने आपत्ति ली। तत्काल केंद्राध्यक्ष ने विश्वविद्यालय के परीक्षा कंट्रोल रूम में बताया। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता को समझते हुए परीक्षा समिति के समक्ष मामला रखा। इस दौरान परीक्षा नियंत्रक ने उक्त विषय की कॉपीयां जांचने से रोक दिया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि समिति के फैसले के बाद उर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। बीते सप्ताह समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें परीक्षा नियंत्रक, डिप्टी रजिस्ट्रार और सहायक कुलसचिव मौजूद थे। समिति सदस्यों ने माना कि डाटा नहीं प्रिंट हुआ है। इसकी वजह से विद्यार्थी प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं। साथ ही चर्चा में यह फैसला लिया कि विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने पर अंक दिए जाएंगे। यह मूल्यांकनकर्ता तय करेंगे कि प्रश्न कितने प्रतिशत प्रश्न हल किया है। उसके आधार पर अंक दिए जाएंगे। साथ ही मूल्यांकन को अंक देने के संबंध में दिश्या भी देना है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी ने बताया डाटा मिसिंग वाले प्रश्न पर परीक्षा समिति की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें प्रश्न हल करने पर विद्यार्थियों को अंक देने का फैसला हुआ है।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय : 7 से 19 मई के बीच होने वाली परीक्षाएं बढ़ाई आगे

इंदौर। लोकसभा चुनाव के चलते देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा है। 7 से 19 मई के बीच होने वाले बीए और बीएससी अंतिम वर्ष के पेपर को आगे बढ़ा दिया है। विश्वविद्यालय ने इन विषयों की परीक्षा संबंधित नया शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 1 जून के बाद रखी गई हैं। चुनाव से जुड़े निर्वाचन कार्यों में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को इश्टी लत चुकी है। इसके चलते परीक्षा से जुड़ी व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। इसे ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार को परीक्षाओं को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। 7 से 19 मई के बीच बीए और बीएससी के नौ - नौ विषयों की परीक्षा होंगी थी, जो अब 2 से 12 जून के बीच कराई जाएंगी। विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल को पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी का कहना है कि चुनाव की वजह से परीक्षा करवाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि केंद्रों पर प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिका पहुंचाने को लेकर कर्मचारियों की कमी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा का नया शेड्यूल बना दिया है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने संकुल प्राचार्यों को भेजा नोटिस

इंदौर। 12 एवं 24 वर्ष पूर्ण करने वाले अध्यापक शिक्षक संवर्ग को प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति संबंधी प्रस्ताव अभी तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा नहीं हुआ है। जिसके चलते जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी संकुल प्राचार्यों को नोटिस जारी कर तत्काल जानकारी भेजने के लिए कहा है। नोटिस में दस दिन का समय दिया गया है। पुरानी पेंशन बहाली संघ के जिलाध्यक्ष और शासकीय शिक्षक संगठन मप्र के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश परमार ने बताया कि कुछ दिनों पहले डीईओ मंगलेश व्यास से कार्यालय जाकर क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान आदेश जारी करने और संबंधित संकुल प्राचार्यों से फाइलें जमा करवाने के लिए कहा था। परमार ने बताया कि अन्य जिलों में क्रमोन्नति के आदेश जारी होने लगे हैं, लेकिन इंदौर में अभी तक कई संकुल प्राचार्यों की जानकारी तक तैयार नहीं की है। डीईओ ने सभी संकुल प्राचार्यों को नोटिस जारी किया है। जिसमें डीईओ कार्यालय में क्रमोन्नति के प्रस्ताव नहीं भेजे वाले प्राचार्यों को 10 दिन के अंदर प्रस्ताव भेजने और आधी अथुरी जानकारी दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि किसी लोक सेवक का नाम क्रमोन्नति से वंचित रहता है, तो संबंधित संकुल प्राचार्य जवाबदार होगा। जिले में 2018 से किसी भी 12 एवं 24 वर्ष पूर्ण करने वाले अध्यापक शिक्षक संवर्ग की प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति नहीं मिले है। जिले में दो हजार से अधिक अध्यापक शिक्षक प्रभावित हुए हैं।

मेडिकैप्स स्कूल में समर कैंप 250 खिलाड़ी से आरंभ



मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल, राउ में छात्रों के लिए समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस ग्रीष्मकालीन शिविर में 250 छात्र विभिन्न गतिविधियों जैसे तैराकी, स्केटिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ड्राइंग, संगीत आदि में भाग ले रहे हैं। यह ग्रीष्मकालीन शिविर मई 01, 2024 से शुरू हुआ और समापन दिवस कार्यक्रम के साथ 25 मई, 2024 को समाप्त होगा। उद्घाटन समारोह में स्कूल प्रबंधन गोपाल अग्रवाल एवं खेल अधिकारी भावेश बुंदेला उपस्थित थे। बुंदेला ने बताया कि इस समर कैंप का उद्देश्य छात्रों में खेल संस्कृति और कौशल विकसित करना है और समापन कार्यक्रम के दिन विभिन्न खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने नीतिगत ब्याज दरों में एक बार फिर नहीं किया बदलाव, जुलाई 2023 से है अपरिवर्तित

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका से आर्थिक जगत के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ब्याज दरों को 5.25 प्रतिशत से 5.50 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। बाजार के जानकारों के अनुसार कारोबार के लिहाज से यह बहुत उत्साह बढ़ाने वाली खबर नहीं है। भारतीय समयानुसार बुधवार की मध्यरात्रि (12 बजे) यूएस फेड ने ब्याज दरों पर अपना फैसला सुनाया। इसके साथ ही यूएस फेड ने ट्रेजरी रिडेम्पशन कैंप में भी कटौती की है।

बुधवार का फेडरल रिजर्व का निर्णय निवेशकों के लिए काफी उबाऊ रहा। अधिकारियों ने ब्याज दरों को वहीं रखा, जैसा जुलाई 2023 में रखा गया था। हालांकि कुछ जानकार कारोबारी फेड के एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर उत्साहित हैं। फेड ने घोषणा की कि वह जून में शुरुआत करते हुए अपने मात्रात्मक कसावट कार्यक्रम को



महत्वपूर्ण रूप से कम करेगा। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की दो दिन की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी बैठक बुधवार देर रात खत्म हो गई। बाजार में पहले से ही अनुमान जताया जा रहा था कि यूएस फेड बेंचमार्क ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा और इन्हें लगातार छठी बैठक में भी 5.25 फीसदी से 5.50 फीसदी पर बनाए रखेगा। अमेरिकी शेयर बाजार यानी वॉल स्ट्रीट ने भी यही अनुमान जताया था।

भारतीय मसालों की गुणवत्ता पर उठे सवाल, निर्यात पर बड़ा खतरा!

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के मसाले दुनियाभर में खाए और बेचे जाते हैं लेकिन जिस तरह के कालिटी से संबंधित मामले कई देशों से निकलकर सामने आए हैं, उससे देश के मसाला कारोबार को बड़े संकट में डाल दिया है। दुनिया भर के कई देशों में भारत से आने वाले मसालों पर गुणवत्ता को लेकर कार्रवाई की गई है। ये देश घरेलू मसाला बाजारों के लिए अहम बाजार हैं। आंकड़ों के अनुसार फिलहाल जिन देशों में मसालों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं वहां भारत से 70 करोड़ डॉलर (करीब 6 हजार करोड़ रुपए) के मसालों का निर्यात किया जाता है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्शिट्यूटव की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कुछ और देश भारत में उत्पन्न होने वाले मसालों पर सवाल खड़े करते हैं तो आधा एक्सपोर्ट कारोबार जोखिम में आ सकता है।

व्या है मामला- हॉन्गकॉंग की फूड रेग्युलेटरी अथॉरिटी सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने 5 अप्रैल को एक रिपोर्ट जारी की थी जानकारी दी गई कि एमडीएच के तीन उत्पाद मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला और करी पाउडर में कीटनाशक एथलीन



ऑक्साइड की मात्रा तय सीमा से ज्यादा मिली है। इसके साथ ही एक्वेस्ट के फ्यास करी मसाले में भी कीटनाशक की मात्रा मिली है। बंडर्स को अथॉरिटी ने निर्देश दिए हैं कि इन उत्पादों को अपने काउंटर से हटा लें और इनकी विक्री को रोक

दिया जाए। लंबी समय तक एथलीन ऑक्साइड के इस्तेमाल से गंभीर रोग होने की आशंका होती है।

इस कदम के बाद अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और माले ने भी एमडीएच और एक्वेस्ट के मसालों की गुणवत्ता पर

सवाल खड़े किए हैं। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने इन देशों में 69.2 करोड़ डॉलर मूल्य के मसालों का निर्यात किया था। सवाल खड़े करने के बाद इस पूरे कारोबार पर असर पड़ने की आशंका बन गई है।

बढ़ सकता है असर

निजी ट्रेड रिसर्च थिंकटैंक ने चेतावनी जारी की है कि अगर इन देशों में चीन भी शामिल हो जाता है तो भारत से एक्सपोर्ट होने वाले कुल मसाले का 51 फीसदी कारोबार सवाल को दायरे में आ जाएगा जो कि 2.17 अरब डॉलर के बराबर है। वहीं अगर यूरोपियन यूनियन कालिटी को लेकर कोई सवाल खड़े करता है तो 2.5 अरब डॉलर का कारोबार सवाल को दायरे में आ जाएगा। एमडीएच और एक्वेस्ट, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और यूके में अपने मसाले भेजते हैं।

जीटीआरआई ने कहा है कि फिलहाल जरूरत है कि अथॉरिटी तेजी के साथ एक्शन लें और ग्लोबल मार्केट में अपना भरोसा वापस पाने की कोशिश करें। जीटीआरआई ने चेतावनी दी है कि अगर देश के कुछ बड़े ब्रांड पर सवाल खड़े होते हैं तो इसके साथ ही देश के पूरे मसाला उद्योग को लेकर भी सवाल खड़े किए जाएंगे।

वेदांता की भारत में 4 साल में 20 अरब डॉलर निवेश करने की योजना, बोले अनिल अग्रवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि समूह ने अगले चार साल में भारत में अपने सभी कारोबारों में 20 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा है। अग्रवाल ने कंपनी के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि समूह अपने इस्पात कारोबार को केवल सही कीमत पर बेचेगा और सही कीमत नहीं मिलने पर वह इसे चलाना जारी रखेगा।

अग्रवाल ने कहा, फिलहाल हमारी योजना चार साल में विभिन्न क्षेत्रों में 20 अरब डॉलर निवेश करने की है। उन्होंने कहा कि यह निवेश प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लास व्यवसायों के अलावा ऐसे अन्य गतिविधियों पर केंद्रित होगा जिसमें समूह शामिल है।

उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन और लैपटॉप स्क्रीन बनाने में उपयोग किए जाने वाले सेमी-कंडक्टर और ग्लास भविष्य के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक हैं, उन्होंने कहा कि समूह पहले से ही दोनों व्यवसायों में मौजूद है। कंपनी के पास सेमीकंडक्टर संयंत्र के लिए गुजरात में जमीन है और वह एक विश्वसनीय और मजबूत साझेदार की तलाश कर रही है।

कंपनी के कर्ज की स्थिति को लेकर चिंताओं के बीच अग्रवाल ने कहा कि कंपनी का कुल कर्ज फिलहाल केवल 12 अरब डॉलर है और ऐसा लगता है कि इसका प्रबंधन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समूह ने कोई भी त्राह चुकाने में कभी चूक नहीं की है।



गर्मियों में त्वचा सम्बन्धी समस्याओं को खत्म करता है नमक

गर्मियों के मौसम में महिलाओं को कई तरह की त्वचा सम्बन्धी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गर्मी में पीसने और धूप के कारण त्वचा काफी टैन और बेजान हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि आप इस मौसम में अपनी स्किन का खास ख्याल रखें। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए नमक के कुछ घरेलू घरेलू उपाय बताए जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी त्वचा को इस मौसम में सुरक्षित रख सकती हैं।

कहा जाता है कि ज्यादा नमक के सेवन से त्वचा रोग होते हैं। खुजली होने के कई कारणों में नमक भी एक कारण है। शरीर में जलन, खराश, त्वचा पर लाल चकते नमक की अधिकता से होते हैं। अगर आपके बाल जरूरत से ज्यादा झड़ रहे हैं तो सोडियम की अधिकता होना इसका एक कारण है। यह सोडियम ज्यादा नमक के सेवन से बनता है जो ज्यादा बन जाए तो बालों की जड़ों को कमजोर कर डालता है। ज्यादा नमक का सेवन करने से होने वाली इन समस्याओं के बावजूद नमक त्वचा को सुरक्षित रखता है, कैसे आइए डालते हैं एक नजर-

टोनर की तरह करें नमक का इस्तेमाल

ऑयली त्वचा से छुटकारा पाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। नमक को टोनर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए इसे एक स्प्रे बोतल में हल्का गुनगुना पानी और नमक अच्छे से मिलाएं। आप रूई का इस्तेमाल कर मिश्रण को चेहरे पर लगा सकते हैं।

नमक मिले पानी से नहाएँ

ड्राई स्किन से परेशान लोग नहाने के पानी में नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक कप पानी में आधा कप नमक डालें और इसे अच्छी तरह से मिलाएं। आप चाहे तो बाथटब को नमक डालकर पानी से भी भर सकते हैं और 15 मिनट तक बैठ सकते हैं।

स्क्रब की तरह करें नमक का इस्तेमाल

अपनी धूप से आपकी स्किन टैन हो गई है तो इसके लिए एक चम्मच नारियल तेल और नमक मिलाएं। इससे बाँड़ी पर स्क्रब करें।

नमक से बनाएं फेस मास्क

नमक का फेस मास्क बनाने के लिए तीन चम्मच शहद और एक चम्मच नमक मिलाएं। इस पेस्ट को अच्छे से मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद चेहरे को साफ कर दें।



क्या आप भी हाइपरथायरायडिज्म की समस्या से जूझ रहे हैं

आज के समय में हाइपरथायरायडिज्म की समस्या से बहुत से लोग पीड़ित होते हैं। इस स्थिति में थायरायड ग्रंथि आवश्यकता से अधिक थायरायड हार्मोन का उत्पादन करने लगती है। जिसकी वजह से शरीर में कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं, जैसे अनिद्रा, हार्ट रेट का फ्लकचुएट होना, कमजोरी महसूस होना, वजन घट जाना, कंपकंपी होना, दस्त और थायरायड का बढ़ना आदि। लेकिन आज के समय में ऐसी किसी भी स्थिति में घबराने की बात नहीं होती। क्योंकि ऐसी टैरो दवा या खाद्य सामग्री होती है, जो थायरायड से संबंधित समस्या और उसके लक्षणों को कम कर सकती है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी अक्सर कहा करते थे, कि अच्छा खाना ही आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी देता है और बचाकर भी रखता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर थायरायडिज्म की स्थिति से जूझने वाले लोगों के लिए क्या खाना सही है और क्या खाना गलत।

न्यूट्रिएंट रिच फूड खाएं

इस स्थिति से निपटने के लिए आपको ऐसी खाद्य सामग्री का सेवन भी करना होगा। जिनके अंदर कई तरह के विटामिन-मिनरल्स और खनिज पदार्थ शामिल हों। इसके लिए आप मशरूम, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, एवोकाडो, आदि का सेवन कर सकते हैं। इन खाद्य सामग्रियों के अंदर मौजूद कैल्शियम, जिंक, आयरन जैसे तत्व आपको सूजन से भी बचाते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर करते हैं। यही नहीं इन खाद्य सामग्रियों के जरिए हड्डियां भी तंदुरुस्त रहती हैं।

हरी पत्तेदार सब्जियां

अगर आज किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे कि सेहतमंद रहने के लिए कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा फायदेमंद है। यही नहीं बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद भी हरी पत्तेदार सब्जी की ही पैरवी करते हुए दिखाई देंगे। पर अगर आपको थायरायड से जुड़ी कोई समस्या है तो आपके लिए हरी पत्तेदार सब्जियों में भी वह अधिक फायदेमंद होंगी, जो ब्रैसिसेकी के

परिवार से आती है, जैसे ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, बोक चोय, काले, फूलगोभी, शलजम आदि। आपको बता दें कि यही सब्जियां हैं जो आयोडीन का उपयोग शरीर में सुचारु ढंग से चला सकती हैं।

करें इन मसालों का सेवन

भारतीय रसोई के भीतर सदियों से ढेरों मसालों को उपयोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वहीं आयुर्वेद के नजरिए से शामिल किए जाने वाले यह मसाले पोषक तत्वों का खजाना होते हैं, जो कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। वहीं ऐसा ही कुछ अब विज्ञान भी मानने लगा है। अगर आपको थायरायड से जुड़ी दिक्कतों से पार पाना है तो आप अदरक, हल्दी, काली मिर्च, लौंग और मिंट का सेवन कर सकते हैं। इन मसालों के अंदर कई एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपकी थायरायड की समस्या और उसके लक्षणों को कम कर सकते हैं।

क्या ना खाएं

ऐसा कहा जाता है जिस तरह एक सही डाइट आपकी समस्याओं को हल लेती है। उसी तरह कुछ गलत चीजें आपकी छोटी मोटी दिक्कतों को बड़ी समस्याओं में तब्दील कर देती हैं। इसलिए जितना जरूरी यह है कि आपको क्या खाना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जो आपको थायरायड की समस्या के दौरान बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए।

आयोडीन युक्त पदार्थ

अगर आप थायरायड से संबंधित समस्या से लड़ रहे हैं तो ऐसे में जरूरी है कि आप आयोडीन युक्त खाद्य सामग्री का सेवन कम से कम करें या बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आप आयोडीन युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे ग्रेव्स डिजीज नाम की एक ऑटो इम्यून स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए आयोडीन युक्त पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे दूध, पनीर, एग योल्क और मक्खन आदि।

आज के समय में हाइपरथायरायडिज्म की समस्या से बहुत से लोग पीड़ित होते हैं। इस स्थिति में थायरायड ग्रंथि आवश्यकता से अधिक थायरायड हार्मोन का उत्पादन करने लगती है।



ग्लूटेन युक्त सामग्री

थायरायड की समस्या से परेशान व्यक्ति को ग्लूटेन युक्त खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल इसकी वजह से शरीर में रोमी को सूजन और एलर्जी की समस्या हो सकती है। आमतौर पर घरों के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला गेहूं माल्ट और खमीर के अंदर ग्लूटेन होता है। इसलिए इस तरह के पदार्थों से दूरी बनाकर रखें।

सोया

सोया उत्पाद का सेवन भी थायरायड की स्थिति में नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके अंदर आयोडीन नहीं होता लेकिन हाल ही में टोफू को लेकर कई अध्ययन हो चुके हैं। यह अध्ययन बताते हैं कि सोया थायरायड की स्थिति को बिगाड़ सकता है। इसलिए इसके सेवन से पूरी तरह बचें।

कैफीनयुक्त पेय पदार्थ

आमतौर पर घरों या दफ्तरों में लोग चाय, कॉफी या चॉकलेट का सेवन करते हैं, जिनमें कैफीन होता है। इनके सेवन से घबराहट, चिड़चिड़ापन, और हार्ट रेट बढ़ सकता है। जो हाइपरथायरायडिज्म की स्थिति के लक्षणों को बढ़ाने का कार्य कर सकता है। अगर आपको यह समस्या है और आप सुबह की शुरुआत में ही चाय या कॉफी का सेवन करते हैं तो आप इसकी जगह हर्बल चाय, पानी या सेब के सिरके का पानी में मिलाकर सेवन कर सकते हैं।



खाली पेट खट्टे फलों के सेवन से हो सकते हैं नुकसान

सुबह का नाश्ता हम सभी के लिए जरूरी है और ब्रेकफास्ट में हम सभी का खान-पान अलग वैराइटी का होता है। जैसे किसी को सुबह के नाश्ते में पोहा और उपमा खाना पसंद है तो कोई भीगे चने या फिर फलों का सेवन करता है। नाश्ते की तस्वीरों में संतरा का रस, क्रोडसन और ब्रेड दिखने में बहुत आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसी चीजें सुबह खाली पेट खाने से हमारी सेहत को लाभ मिलते हैं? चूंकि खट्टे फलों में एसिड पाया जाता है, जो हमारे एंजर यानी गुरु से कारण हो सकता है। इसी तरह, खमीर युक्त ब्रेड भी पेट को प्रभावित कर सकती है, जो भविष्य में गैस्ट्रिक की समस्या का कारण बन सकती है। इसलिए यहाँ हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जिनके खाली पेट सेवन करने से आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स हमेशा ही सुबह-सुबह गर्म पानी और शहद मिलाकर पीने की सलाह देते आए हैं। दरअसल शहद, खनिज, विटामिन, फ्लेवोनोइड्स और एंजाइमों से समृद्ध होता है जो आपके पेट को साफ रखने के लिए मददगार होता है। गर्म पानी के साथ शहद पीने से शरीर के अंदर मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं जो पेट की समस्याओं का कारण बनते हैं।

पपीता

मल त्याग को कंट्रोल करने के लिए पपीता का सेवन सही विकल्प है। खाली पेट खाने के लिए पपीता एक सुपरफूड है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि पपीता 12 माह यानी पूरे साल बाजार में मिलता है, इसलिए आप हमेशा के लिए इसे अपने सुबह के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। ये फल न केवल शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर करने में मदद करता है बल्कि खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता और दिल की बीमारियों के जोखिम से बचाव करता है।

पोरिज

यदि आप कम कैलोरी और अधिक मात्रा के पोषक तत्वों वाला नाश्ता खाना पसंद करते हैं तो पोरिज एक बढ़िया विकल्प है। खासकर दलिया से बना पोरिज सुबह के नाश्ते का सुपरफूड है, जो स्वाद में भी लाजवाब है और सेहत के लिए हेल्दी भी है। खाली पेट पोरिज खाने से भी शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और आंतों की सेहत भी हेल्दी रहती है। दलिया खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है जिससे आप अतिरिक्त खाने से भी बचते हैं।

नट्स

हेल्दी गट यानी स्वस्थ आंत के लिए नाश्ते में मुट्ठी भर नट्स खाना बहुत जरूरी है। यह न केवल पाचन में सुधार करते हैं बल्कि आपके पेट के पीएच लेवल को भी सामान्य करते हैं। आप अपनी डेली डाइट में किशमिश, बादाम और पिस्ता को शामिल कर सकते हैं। हालांकि, आपको इन्हें कम मात्रा में ही खाने, क्योंकि इसकी अधिक खाने से पिंपल्स और वजन बढ़ सकता है।

गर्मी में आपको ऊर्जावान महसूस कराएंगे ये पेय पदार्थ



गर्मी में अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम का मिजाज जब गर्म होता है तो कुछ ठंडा पीने की चाह होती है। इस चाह को पूरा करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लिया जाता है तो क्षणिक तौर पर तो ठंडक देती है लेकिन बाद में वह तकलीफ का कारण बनती है। आज हम अपने पाठकों को गर्मी से राहत दिलाने वाले कुछ ऐसे ठंडे पेय पदार्थों के बारे में बताए जा रहे हैं जो आपको न सिर्फ गर्मी से राहत प्रदान करेंगे अपितु वो आपको ऊर्जावान भी महसूस कराएंगे।

नींबू पानी या शिकंजी

नींबू शरीर को हाइड्रेट करता है। नींबू विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है। नींबू टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। आप सिर्फ नींबू को पानी में मिलाकर पी सकते हैं। आप इसकी शिकंजी बनाकर भी पी सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है आप शिकंजी चीनी वाली पीयेगे या फिर नमक वाली।

छाछ

कैल्शियम, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन बी 12 से भरपूर छाछ गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचाती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं और ये बाँड़ी को हाइड्रेट करके पेट को ठंडा रखती है। आप मसाला छाछ भी बना

सकते हैं, इसमें नमक, अदरक-मिर्च का पेस्ट मिला सकते हैं या फिर भुना जीरा पाउडर, सेंधा नमक, पुदीने के पत्ते भी मिलाकर इसका मजा लिया जा सकता है।

सतू का शर्बत

सतू के गुणों से हर गुड़िणी वाकिफ है। शारीरिक ऊर्जा प्रदान करने के साथ-साथ गर्मी से भी राहत प्रदान करता है। इसे आप पानी में मिक्स करके नींबू का रस व काला नमक डालकर पिएं।

आम पना

आम पना लू से बचाव करता है और बेहद स्वादिष्ट भी होता है। आप कच्चे आम यानी केरी का छिलका हटाकर उबाल लें। इसकी गुठली निकालकर इसमें काला नमक, शक्कर मिलाकर ब्लेंड कर लें। फिर इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रखें। चिल्ड सर्व करें, चाहे तो ऊपर से चाट मसाला या भुना जीरा या जीरा पाउडर बुरक लें।

नारियल पानी

ये हर मौसम में सुरक्षित है, लेकिन गर्मी में यह पेट व शरीर को ठंडक प्रदान करता है। एनर्जी से भरपूर है और डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। अगर आपको इसे

ठंडा करके पीना है तो पानी निकालकर कुछ देर फ्रिज में रख दें।

बेल का शर्बत

यह बेहद गुणकारी है। विटामिन सी, आर्यन, प्रोटीन व फाइबर से भरपूर बेल पेट को ठंडक देता है। इसके गूदे को मेश करके इसमें पानी, शक्कर, काला नमक मिलाकर पीना चाहिए। चाहे तो उसको ठंडा करके पिएं। यह लू से भी बचाव करता है साथ ही पेट को रोग मुक्त रखता है।

गन्ने का रस

गन्ने का रस पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, शरीर और पेट को भी ठंडक देता है। इसमें कैल्शियम, आयरन व मिनरल्स होते हैं जो गर्मी में एनर्जी प्रदान करते हैं।

दिन भर में 12 गिलास पानी पीयें

पानी गर्मी से निजात दिलाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। गर्मी के दिनों में कम से कम 12 गिलास पानी नियमित रूप से पीयें। हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी से बेहतरीन ड्रिंक और भला क्या हो सकता है। पानी से शरीर में बनने वाले टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। गर्मी के दिनों में हल्का भोजन करें, अल्कोहल, तेज मसाले व तली चीजें और एरिपेटेड/कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और पैक्ड जूस को अपने से दूर रखें। इन चीजों के स्थान पर आप जलजीरा, तरबूज का रस, टमाटर, ककड़ी, गाजर आदि का जूस लें और मौसमी फल व सब्जियों का सेवन करें।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025...

भारत सभी मैच लाहौर में खेल सकता है



कराची, एजेंसी। क्रिकेट के मुताबिक पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मैच तीन शहरों (कराची, लाहौर और रावलपिंडी) में करा सकता है। इसमें से भारत के सभी मैच लाहौर में हो सकते हैं, ताकि टीम की सिक्योरिटी का मैनेजमेंट सही तरीके से हो सके। इसका एक और कारण यह है कि लाहौर भारत के वाया बॉर्डर से नजदीक है।

पीसीबी के सूत्रों के मुताबिक आईसीसी महाप्रबंधक वसीम खान ने भी हाल ही में लाहौर का दौरा किया था, जहां उन्होंने पीसीबी के अधिकारियों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामों को लेकर चर्चा की थी और यह सुझाव दिया था कि भारतीय टीम को कम ट्रेवल कराया जाए।

1996 के बाद टीम को पहली बार मिली मेजबानी

मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीसीबी ने टूर्नामेंट के वेन्यू का ड्राफ्ट आईसीसी को सौंप दिया है। टूर्नामेंट के आयोजन अगले साल फरवरी-मार्च में होना है। वनडे वर्ल्ड कप 1996 के बाद यह पहला मौका है जब पाकिस्तान को किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी दी गई है।

पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने लाहौर में

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में होने वाले मैचों का शेड्यूल भेज दिया है। आईसीसी की सिक्योरिटी टीम आई थी और हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हम लगातार आईसीसी के संपर्क में बने हुए हैं। हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे टूर्नामेंट होस्ट करें।

टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने पर संशय

पिछले महीने एक मिडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि (आईसीसी) इसे एशिया कप की तरह 'हाइब्रिड मॉडल' पर करा सकता है। आईसीसी के कार्यकारी बोर्ड के एक सूत्र ने PTI से कहा था, यदि भारत सरकार टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजना नहीं चाहती तो, आईसीसी वहां के बोर्ड पर दबाव नहीं बना सकती है। उसे विकल्प तलाशना होगा। भारत के कहने पर एशिया कप के मैच श्रीलंका में हुए थे।

पिछले साल भी एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी। तब भी भारत के वहां नहीं जाने पर यह टूर्नामेंट 'हाइब्रिड मॉडल' पर हुआ था। भारत के मुकाबले श्रीलंका में कराए गए थे।



रिंकू सिंह के पिता ने कहा, बहुत उम्मीदें थीं, उसका दिल टूट गया है

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत की टी20 विश्व कप टीम से रिंकू सिंह को बाहर किए जाने पर उनके पिता खानचंद्र सिंह ने कहा कि परिवार में मिटाइयाँ और पटाखे तैयार थे क्योंकि बहुत उम्मीदें थीं।

बीसीसीआई ने मंगलवार को टी20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। मुख्य टीम में रिंकू शामिल नहीं थे क्योंकि उन्हें रिजर्व खिलाड़ी के रूप में रखा गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, उनके पिता ने भारत 24 के हवाले से कहा, बहुत उम्मीदें थीं और इसलिए थोड़ी निराशा है। हम जश्न मनाने के लिए मिटाइयाँ, पटाखे लाए, हमने सोचा कि रिंकू पहले ग्यारह में खेलेंगे। फिर भी, हम बहुत खुश थे। हां, उसका दिल टूट गया है। उसने अपनी मां से बात की और उन्हें बताया कि उसे 11 या 15 में नहीं चुना गया है।

लेकिन उसने यह भी कहा कि वह टीम के साथ यात्रा करेगा। रिंकू ने 15 टी-20 मैच खेले हैं और 176.24 के स्ट्राइक रेट और 89.0 के औसत के साथ 69 के उच्चतम स्कोर के साथ 356 रन बनाए हैं।



चार भारतीय मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंचे

अस्ताना, एजेंसी। भारतीय युवा मुक्केबाज आर्यन, यशवर्धन सिंह, प्रियांशु और साहिल ने बुधवार को कजाकिस्तान के अस्ताना में एएसबीसी एशियन अंडर-22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में आत्मविश्वास से भरी जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया और अपने लिए पदक पक्का कर लिया।

आर्यन ने 51 किग्रा वर्ग में उज्बेकिस्तान के जुराव शकरबॉय के खिलाफ 5-0 के सर्वसम्मत निर्णय से जीत के साथ भारत को बेहतरीन शुरुआत दी। उनकी जीत के बाद यशवर्धन (63.5 किग्रा) ने जीत हासिल की, जिन्होंने इरान के मिमहमादी बाबाहेदरी पर 4-1 से जीत हासिल की। दूसरी

ओर, प्रियांशु (71 किग्रा) और साहिल (80 किग्रा) को जरा भी पसीना नहीं बहना पड़ा और उन्होंने क्रमशः चीनी ताइपे के वू यू एन और तुर्कमेनिस्तान के यकलीमोव अब्दिरहमा के खिलाफ रेफरी स्टॉप द कॉन्टेस्ट (आरएससी) के फैसले के साथ मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस बीच, जतिन ने 57 किग्रा वर्ग में अपना अभियान उज्बेकिस्तान के ए नोदिरबेक के खिलाफ 1-4 से हार के साथ समाप्त किया। यूथ सेमीफाइनल शुक्रवार को खेला जाएगा।

आर्यन (92 किग्रा), निशा (52 किग्रा), आकांशा फलसवाल (70 किग्रा) और रुद्रिका (75 किग्रा) अपने-अपने युवा क्वार्टर फाइनल

मुकाबलों में आज उतरेंगे। मंगलवार देर रात जुगनु (86 किग्रा), तम्मना (50 किग्रा) और प्रीति (54 किग्रा) ने जीत हासिल कर अंडर-22 सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

गुरुवार को आठ अंडर-22 मुक्केबाज अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के लिए रिंग में उतरेंगे, एम जदुमणि सिंह (51 किग्रा), आशीष (54 किग्रा), निखिल (57 किग्रा), अजय कुमार (63.5 किग्रा), अंकुश (71 किग्रा) और ध्रुव सिंह। पुरुष वर्ग में (80 किग्रा) जबकि महिला वर्ग में गुड्डी (48 किग्रा) और पूनम (57 किग्रा) अपनी चुनौती रखेंगी। यूथ और अंडर-22 वर्ग का फाइनल क्रमशः 6 और 7 मई को खेला जाएगा।



दीपक चाहर की चोट पर सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने दिया अपडेट

'चहर अच्छे नहीं दिख रहे'

चेन्नई, एजेंसी। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने तेज गेंदबाज दीपक चाहर की चोट के बारे में अपडेट दिया और कहा कि 31 वर्षीय खिलाड़ी अच्छे नहीं दिखते। बुधवार को पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 के मुकाबले के दौरान चाहर गेंदबाजी करते समय चोट लगने के बाद मैदान से बाहर चले गए।

उन्हें दूसरी पारी का पहला ओवर दिया गया। दूसरी डिलीवरी के तुरंत बाद सीएसके के गेंदबाज ने कप्तान रतुताज गायकवाड़ से बात की और अपने स्पेल में सिर्फ दो गेंदें फेंकने के बाद मैदान से बाहर चले गए। चाहर के स्पेल की बाकी चार गेंदें पूरी करने के लिए शार्दूल ठाकुर को बुलाया गया। मैच के बाद फ्लेमिंग ने कहा कि चाहर की चोट बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि सीएसके टीम प्रबंधन अधिक सकारात्मक रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है। मुख्य कोच ने कहा कि तुषार

देशपांडे इस समय फ्लू से पीड़ित हैं जिसके कारण उन्हें अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया गया है।

फ्लेमिंग ने कहा, दीपक चाहर अच्छे नहीं दिखते। शुरुआती अहसास अच्छे नहीं था। इसलिए हम और सकारात्मक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। फिजियो और डॉक्टर देखेंगे। श्रीलंकाई लड़के वीजा लेने के लिए रवाना हो गए हैं। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी प्रक्रिया ठीक रहेगी। हम उन्हें उत्तर में (धर्मशाला में) अपने अगले मैच के लिए वापस ले आए। रिचर्ड ग्लोसन अच्छे थे, तुषार देशपांडे को फ्लू हो गया था, इसलिए हमें आज कुछ बदलाव करने पड़े, जो थोड़ा असामान्य है यह इसका हिस्सा है और हमारे पास संसाधन हैं। यह सिर्फ इतना है कि उन्हें अपनी भूमिकाओं के बारे में सहज होने का समय नहीं मिला है और हमें उस गेम प्लान के साथ सहज होने का समय नहीं मिला है जिसके साथ हम संघर्ष कर रहे हैं।

साद बिन जफर पहली बार कनाडा की टी20 विश्व कप टीम की कप्तानी करेंगे

ऑटारियो, एजेंसी। कनाडा ने वेस्टइंडीज और यूएसए में 1 जून से शुरू होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें अल्लराउंडर साद बिन जफर को कप्तान बनाया गया है। जफर पहली बार टी20 विश्व कप में कनाडा की कप्तानी करेंगे। टीम को पूर्व श्रीलंकाई और कनाडाई अंतर्राष्ट्रीय पुबुदु दस्सानायके द्वारा



प्रशिक्षित किया गया है, जिन्होंने 2022 में बागडोर संभाली थी। कनाडा को रूप ए में भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड और अमेरिका के साथ रखा गया है। वे 1 जून को डलास में पड़ोसी अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, इसके बाद उत्तरी अमेरिकी देश को 7 जून को आयरलैंड का सामना करना है। इसके बाद 11 जून को पाकिस्तान और 15 जून को भारत के खिलाफ उनका मुकाबला होगा।

टीम: साद बिन जफर (कप्तान), आरोन जॉनसन, डिलन हेलिंगर, दिलश्रीत बाजवा, हर्ष ठाकरे, जेरेमी गॉर्डन, जुनैद सिद्दीकी, कलीम सना, कवरपाल ताथपुर (विकेटकीपर), नवनीत धालीवाल, निकोलस किर्टन, पराट सिंह, रविंदरपाल सिंह, रयानखान पट्टन, थ्रेयस मोच्वा (विकेटकीपर)।

रिजर्व: तजिंदर सिंह, आदित्य वरदराजन, अम्मार खालिद, जतिंदर मथारू, परवीन कुमार।

थॉमस कप

प्रणय ने ओलिंपिक मेडलिस्ट को दी मात

● फिर भी थॉमस कप में इंडोनेशिया को नहीं हारा पाया भारत

चेंगदू (चीन), एजेंसी। गत चैंपियन भारत बुधवार को थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशिया की मजबूत टीम के खिलाफ 1-4 से हार गया और अपने रूप में शीर्ष पर नहीं पहुंच पाया। भारत और इंडोनेशिया दोनों पहले ही अपने शुरुआती दोनों मैच जीतकर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं लेकिन इंडोनेशिया ग्रुप सी के विजेता के रूप में नॉकआउट में जाएगा। इस मुकाबले में हार के बावजूद भारत के लिए सकारात्मक पक्ष

एच एस प्रणय रहे जिन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं से उबरकर वापसी करते हुए जीत दर्ज की। अब क्वार्टर फाइनल में भारत की भिड़त चीन से होगी।

सात्विक और चिराग कांटे की टक्कर में हारे

थॉमस कप 2022 के फाइनल भारत ने इंडोनेशिया को ही 3-0 से हराकर खिताब

जीता था। पुरुष एकल में भारत के नंबर एक खिलाड़ी प्रणय ने शुरुआती मैच में पहला गेम गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए एंथनी गिंटिंग को 13-21, 21-12, 21-12 से हराकर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। पहले



पुरुष युगल मैच में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेठी की स्टार जोड़ी मुहम्मद शोहिबुल फिकरी और बागस मौलाना से हार गई। इसी जोड़ी ने पिछली ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में भारतीय जोड़ी को हराया था।

इंडोनेशिया की जोड़ी ने सात्विक और चिराग को 22-24, 24-22, 21-19 से हराया जिससे मुकाबला 1-1 से बराबर हो गया।

हुमा कुरैशी ने बताया आखिर क्या चीज उन्हें नींद से वंचित होने पर खुशी देती है

महारानी सीरीज से एक अलगा

पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इन दिनों अपने अगले प्रोजेक्ट गुलाबी की शूटिंग में व्यस्त हैं। उन्होंने बताया कि नींद से वंचित होने पर भी उन्हें किस चीज से खुशी मिलती है। महारानी स्टार ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक किताब की दुकान में कदम रखते हुए एक वीडियो शेयर किया। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह हवाईअड्डे पर थी जब उसकी नजर किताबों की दुकान पर पड़ी। वीडियो में उपन्यास जेवा एन एक्वीडेंटल सुपरहीरो की भी झलक देखी जा सकती है। उन्होंने इसे कैप्शन दिया, नींद चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, इससे मुझे हमेशा खुशी मिलती है। हुमा ने अपनी आगामी फिल्म गुलाबी की शूटिंग की एक झलक भी शेयर की, जहां वह एक ऑटो-रिक्शा चालक की भूमिका निभाएंगी। शूटिंग एक रीगिस्तानी इलाके में हो रही थी। एक झलक में ऊंटों को भी देखा जा सकता है। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, आज का ऑफिस, गुलाबी। विपुल मेहता द्वारा निर्देशित गुलाबी की बात करें तो यह सच्ची कहानी पर आधारित है।

बॉबी देओल ने कहा मेरा भाई सनी सुपरमैन की तरह मजबूत

फिल्म एनिमल में अपने अभिनय से पहचान बनाने वाले बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल स्ट्रीमिंग कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नवीनतम एपिसोड में नजर आए। एपिसोड के दौरान बॉबी ने खुलासा किया कि उनके भाई की पीठ की कई सर्जरी हुईं, लेकिन वह अभी भी मजबूत हैं और आसानी से एक्शन सीन कर सकते हैं।

बॉबी ने शेयर किया, वास्तविक जीवन में अगर सुपरमैन जैसा कोई मजबूत व्यक्ति है, तो वह मेरा भाई है। मैंने उनसे ज्यादा ताकतवर इंसान कभी नहीं देखा। उनकी पीठ की कई सर्जरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद, जब भी उन्हें किसी



लेते हैं। मजेदार बात यह है कि वह ये सब ऐसे कर लेते हैं जैसे उसका कोई वजन ही नहीं है।

2022 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पीठ में चोट लगने के बाद सनी ने अमेरिका में अपना इलाज करवाया। देओल्स के लिए साल 2023 बहुत अच्छा रहा। उनकी सभी फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं, जिनमें रंकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें धर्मद ने अभिनय किया था, सनी देओल-स्टार गदर 2 और एनिमल जिसमें बॉबी ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। द ग्रेट इंडियन कपिल शो नेटफिलक्स पर स्ट्रीम होता है।



अनुपम खेर ने की जूनियर एनटीआर की तारीफ

दिग्गज बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने जूनियर एनटीआर के साथ एक फोटो शेयर की है। उनकी तारीफ करते हुए एक्टर ने कहा कि उन्हें आरआरआर में उनका काम बहुत पसंद आया। अनुपम ने बुधवार सुबह एक्स पर एक फोटो शेयर की, जिसमें दोनों सितारे को एक रेस्तरां में कैमरे के लिए पोज देते हुए देखा जा सकता है। कैप्शन में अनुपम ने लिखा, कल रात मेरे पसंदीदा व्यक्तियों में से एक एक्टर जूनियर एनटीआर से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं उनके काम को पसंद करता हूं। वह ताकत से और आगे बढ़ते रहें, जय हो। अनुपम फिलहाल अपनी दूसरी निर्देशित फिल्म तन्वी द ग्रेट में व्यस्त हैं। वह इस फिल्म से 22 साल बाद निर्देशक की कुर्सी पर वापसी कर रहे हैं। एक फिल्म निर्माता के रूप में उनकी पहली फिल्म ओम जय जगदीश थी, जिसकी कहानी फरदीन खान, अनिल कपूर और अभिषेक बच्चन द्वारा निर्भाए गए तीन भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है। दूसरी ओर, जूनियर एनटीआर रॉक स्टार रोशन अभिनीत वॉर 2 की तैयारी में व्यस्त हैं। फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है। वॉर 2 2019 में आई रॉक, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर की फिल्म वॉर का सीकवल है। उनके पास एक पैन-इंडिया फिल्म देवर-पार्ट 1 भी है, जिसमें जाह्नवी कपूर और सैफ अली खान भी हैं। यह फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है।

संक्षिप्त समाचार

बृथ स्तर पर एक दूसरे की मदद करेंगे आप-कांग्रेस, चुनावी रणनीति पर मथन



नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के अभियान को धार देने के लिए रणनीति पर बैठक की। इंडिया ब्लॉक के बैनर तले मंगलवार को हुई इस बैठक में आप के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के साथ दोनों खेमें के प्रमुख सदस्य शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव अभियान की राजनीतिक पेचीदगियों पर चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस की ओर से दिल्ली और हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व ने भी हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व विधायक दुर्गेश पाठक ने किया जबकि कांग्रेस इकाई का नेतृत्व दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और अंतरिम अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने किया। दोनों पार्टियों के नेताओं ने हरियाणा की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की। समन्वय समिति की बैठक के बारे में बोलते हुए आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि आप और कांग्रेस के बीच पहले भी कई बैठकें हुई हैं। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि आप विधायक व एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक समन्वय का काम देखेंगे। हमने एक व्यवस्था बनाई है जिसके तहत हम एक-दूसरे के लिए चुनाव प्रचार करने में सहयोग करेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसको पहले लोकसभा स्तर पर लागू करेंगे। उसके बाद विधानसभा स्तर पर समन्वय को लागू किया जाएगा। संदीप पाठक ने कहा कि हमने जमीनी स्तर पर चुनाव अभियान शुरू करने के लिए एक बैठक की। दोनों पार्टियों के बीच चर्चा काफी सकारात्मक रही। दोनों पार्टियों ने एक सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम के जरिए दोनों दल एक-दूसरे के चुनाव प्रचार में सहयोग करेंगे। दोनों दलों के बीच पहले लोकसभा स्तर और फिर विधानसभा स्तर पर कोऑर्डिनेशन होगा। हमने एक-दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा- हमें देश को मोदी सरकार की तानाशाही से आजाद कराना है। केंद्र सरकार एक-एक कर के सरकारी संस्थानों को खत्म कर रही है। सभी संवैधानिक एजेंसियां??केंद्र सरकार की इच्छा पर काम कर रही हैं। देश को मोदी सरकार की तानाशाही से बचाने के लिए हमें एक-दूसरे का सहयोग करना होगा इसलिए दोनों पार्टियां एकजुट हैं। दोनों दलों के बीच चर्चा इस बात पर हुई कि इंडिया अलायंस दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगा।

डिनर डेट पर गई थी लड़की, हो गया झगड़ा; लिव इन पार्टनर पर पीटने का आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी। अपने लिव इन पार्टनर के साथ डिनर डेट पर गई इस लड़की ने अब अपने पार्टनर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला गुरुग्राम का है। बताया जा रहा है कि पीड़िता सेक्टर-74 में रहती है। इस लड़की ने आरोप लगाया है कि डिनर डेट के दौरान उनका अपने लिव इन पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया था जिसके बाद लड़के ने उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह महिला गुरुग्राम की ही एक कंपनी में रिक्लूटमेंट कंसल्टेंट का काम करती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महिला के लिव इन पार्टनर का नाम करण सेठ है जो दिल्ली के साकेत इलाके में रहते हैं। बताया जा रहा है कि 21 अप्रैल को महिला एक मॉल में करण सेठ के साथ गई थीं। यहां एक रेस्टोरेंट में इन दोनों ने खाने का ऑर्डर किया था। खाना ऑर्डर करने के बाद उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। महिला का आरोप है कि झगड़े के दौरान अचानक करण सेठ को इतना गुस्सा आ गया कि उसने उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि हले करण ने उनकी पिटाई की और अपने एक दोस्त और जिम ट्रेनर विशाल को भी वहां बुलाया। महिला का आरोप है कि इसके बाद इन दोनों ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी। महिला ने अब इसकी शिकायत थाने में की है। महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। महिला का कहना है कि दोनों ने उनकी पिटाई करने के बाद उन्हें कार में बैठा कर उनके घर छोड़ दिया था।

जेल में बंद केजरीवाल ले रहे दिल्ली कांग्रेस के भी फैसले, इस्तीफा देने वाले नेता का बड़ा दावा

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) से चुनावी दोस्ती कांग्रेस में कलह की वजह बन गई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफा के बाद अब पार्टी के दो पूर्व विधायकों नसीब सिंह और नीरज बसोया ने बगावत करते हुए इस्तीफा दे दिया है। दोनों ही नेताओं ने आप से कांग्रेस की दोस्ती पर तीखे खवाल पछते हुए खुद को पार्टी से अलग कर लिया। नसीब और नीरज ने पूछा कि क्यों कांग्रेस ने एक ऐसे दल के साथ गठबंधन किया जो उसकी तीखी आलोचना करती रही। साथ ही यह भी कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह गठबंधन मंजूर नहीं है।

पूर्व विधायक नसीब सिंह ने कहा कि कांग्रेस की जो आज हालत है वह केवल आम आदमी पार्टी की वजह से है, जिसने दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार और केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ झूठ प्रोपेगंडा चलाया। उन्होंने कन्हैया कुमार और उदित राज की

उम्मीदवारी को लेकर भी खवाल खड़े किए और कहा कि वह पार्टी की विचारधारा से जुड़े नहीं हैं। नसीब सिंह ने एएनआई से बातचीत में कहा, हम सीनियर नेता, करीब 30-35 पूर्व विधायक जो दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार का हिस्सा रहे थे, आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर रहे थे। हमने कहा कि एक पार्टी जिसने हमारे लिए खराब भाषा का इस्तेमाल किया, सोनिया गांधी और शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात कही थी, राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की बात कही। हम कैसे उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं? लेकिन हाईकमान ने हमारी बात नहीं सुनी और गठबंधन कर लिया। नसीब सिंह ने आगे कहा, मुझे लगता है कि गठबंधन एक ही सीट पर है क्योंकि दो लोग (कन्हैया कुमार और उदित राज) हमारी विचारधारा से नहीं हैं। आज पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम ऐसे दल के साथ काम नहीं कर सकते हैं जिसने झूठ प्रोपेगंडा चलाकर हमें खत्म



किया। हम नहीं देख सकते हैं जो कुछ सोनिया गांधी के नेतृत्व छोड़ने के बाद पार्टी में चल रहा है। नसीब सिंह ने कांग्रेस पार्टी में अरविंद केजरीवाल के हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से दिल्ली कांग्रेस कमिटी चला रहे

हैं। कन्हैया कुमार और उदित राज जो कांग्रेस की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं, खरगे जी की तस्वीर नहीं लगा रहे। क्या सत्ता के लालच में कांग्रेस इतनी नीचे गिर जाएगी? नीरज बसोया ने भी आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन की आलोचना की और इसे पूरी तरह

से गलत, अव्यवहारिक और अप्राकृतिक बताया।

बसोया ने एएनआई से कहा, मैंने साफ तौर पर खरगे को लिखे लेटर में कहा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन पूरी तरह गलत, अव्यवहारिक और अप्राकृतिक है। सविधान बचाने के नाम पर उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खत्म कर दिया। हम जनता को चेहरा नहीं दिखा सकते, 10 सालों तक सभी प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष चिल्लाते रहे कि वह (अरविंद केजरीवाल) धोखेबाज और भ्रष्ट है। हम कैसे अपने दुश्मन के साथ दोस्ती कर सकते हैं? इस गठबंधन को लेकर दी गई दलीलों को हम नहीं समझ पाते, यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो जनता कैसे समझेगी? उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वादों और गांधी परिवार या अन्य कांग्रेस नेता के बारे में बात नहीं करती, वे केवल अरविंद केजरीवाल पर बोलते हैं।

मेरठ एक्सप्रेसवे पर जल्द तैयार होगी एग्जिट रोड? एनएचआई ने बताया; 35-40 हजार को मिलेगा फायदा



नई दिल्ली, एजेंसी। मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए एग्जिट रोड का निर्माण कार्य तेज हो गया है। यह रास्ता इस माह के दूसरे सप्ताह में तैयार हो जाएगा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर योजना 35 से 40 हजार लोग सफर कर रहे हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के पास दिल्ली जाने के लिए प्रवेश रास्ता नहीं था। लोगों को एनएच-9 पर लंबी दूरी तय कर एक्सप्रेसवे

पर प्रवेश मिल रहा था। इसी तरह दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के पास एक्सप्रेसवे से बाहर निकलने का निकास स्थान नहीं था। लोग दोनों जगह प्रवेश और निकास रास्ता बनवाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। एनएचआई ने प्रवेश रास्ता खोलने के बाद अब निकास रास्ता बनाने का काम तेज कर दिया है। इसके बनने से दिल्ली से आने वाले उन वाहन चालकों को राहत मिलेगी जिन्हें क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी

या आसपास की कॉलोनी में जाना होता है। वह सीधे एक्सप्रेसवे से एनएच-9 पर आ सकेंगे। एनएचआई के परियोजना अधिकारी धीरज सिंह ने बताया कि निकास रास्ता बनाने का काम तेजी से कराया जा रहा है। यह रास्ता मई के दूसरे सप्ताह में वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। निकास स्थान जहां काम चल रहा है वहां अस्थायी डिवाइडर लगाए हैं ताकि वाहन चालक आसानी से निकल सकें। उन्होंने बताया निकास स्थान बनने से लोगों को राहत मिलेगी।

टाइम और पैसे की बचत, अगले महीने शुरू होगा चार मूर्ति अंडरपास का काम; एनसीआर को होगा बड़ा फायदा

नई दिल्ली, एजेंसी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चार मूर्ति गोलचक्र पर बनने वाले अंडरपास का काम अगले महीने शुरू होगा। इसके लिए चयनित की गई एजेंसी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वर्क ऑर्डर (कार्य आदेश) जारी कर दिया गया है। काम शुरू करने के लिए फिलहाल सर्वे किया जा रहा है। लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस अंडरपास के तैयार हो जाने के बाद जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाएगी।



दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट का चार मूर्ति गोलचक्र पर वाहनों का सबसे अधिक दबाव रहता है। इसके चलते यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा कई बार प्रयास किए गए, लेकिन बात नहीं बन रही। सूरजपुर से गौर सिटी और गाजियाबाद जाने वाले वाहन नोएडा के तरफ बने यूरटन का प्रयोग कर चार मूर्ति गोलचक्र पर गाजियाबाद की ओर निकलते हैं।

वहीं, गौर सिटी और गाजियाबाद से आने वाले वाहन गौर सिटी मॉल के सामने बने यूरटन का उपयोग कर वापस चार मूर्ति चौराहे पर आकर सूरजपुर की तरफ से आते हैं। यहां पर जाम की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए ही प्राधिकरण ने अंडरपास बनाने का फैसला किया है। इसके बनने से सूरजपुर से गाजियाबाद जाने

वाले वाहन चालक अंडरपास का इस्तेमाल आसानी से अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। अंडरपास के निर्माण पर लगभग 80 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। निर्माण शुरू होने के 18 माह में काम पूरा करने का लक्ष्य कंपनी को दिया गया है।



रूसी मिसाइल का शिकार हुआ हैरी पॉटर महल, पांच लोगों की मौत; 30 घायल

कीव , एजेंसी। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले दो साल से युद्ध लगातार जारी है। इस युद्ध में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हर दूसरे दिन दोनों देश एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। हाल-ही में दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा से एक हमला सामने आया है, जहां हैरी पॉटर कैसल के नाम से मशहूर यूक्रेनी इमारत पर एक रूसी मिसाइल के हमले में कम से पांच लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा इस हवाई हमले में 30 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन के अभियोजक जनरल एंड्री कोस्टिन ने हमले को लेकर बताया कि हमले स्थल से 1.5 किमी (लगभग 1 मील) के दायरे में धातु के टुकड़े और मिसाइल का मलबा बरामद किया गया। जांच में इस बात पर पुष्टि करने का आधार है कि रूसी सेना ने बड़ी संख्या में लोगों को हताहत करने के इरादे से कलस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस हवाई हमले में घायल हुए 30 लोगों में दो बच्चे और एक गर्भवती महिला शामिल हैं। हमले से लगभग 20 आवासीय इमारतें और बुनियादी सुविधाएं भी क्षतिग्रस्त हो गईं।

ब्रिटेन पहुंचे हजारों शरणार्थियों को भेजा जाएगा रवांडा, हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई शुरू

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन की संसद ने हाल ही में विवादित रवांडा डिपोर्टेशन विधेयक पारित किया था। ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनने से पहले रवांडा पॉलिसी लागू करने का वादा किया था। अब इसी के तहत जूलाई की शुरुआत में ब्रिटेन से अवैध शरणार्थियों के पहले जर्जे को रवांडा भेजना शुरू किया जाएगा। इसके लिए यहां की सरकार ने शरणार्थियों को हिरासत में लिए जाने का काम शुरू कर दिया है। गृह मंत्री जेम्स क्लेवरली ने कहा, हमारी प्रवर्तन टीम में उन लोगों को तेजी से हिरासत में लेने के लिए गति से काम कर रही हैं, जिन्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। हिरासत में लेने के बाद इन्हें रवांडा भेजा जाएगा। शरणार्थियों को रोकना सरकार की प्राथमिकता



बता दें कि हाल के सालों में हजारों की संख्या में लोग गरीबी और युद्ध की मार से परेशान होकर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों से ब्रिटेन पहुंचे हैं। ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल छोटी-छोटी नौकाओं से इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन पहुंचते हैं। इन शरणार्थियों को रोकना ब्रिटेन सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हालांकि, आलोककों का कहना है कि शरणार्थियों को रवांडा भेजना अमानवीय है। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट भी शरणार्थियों को रवांडा डिपोर्ट करने की पॉलिसी

को गैरकानूनी करार दिया है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में यूरोप से छोटी नौकाओं से पहुंचने वाले प्रवासियों को लेकर कहा था कि इन लोगों पर रोक लगाने के लिए पहले हिरासत में लिया जाएगा। उसके बाद इन्हें अगले 10 से 12 सप्ताह में रवांडा भेजा जाएगा। चैरिटी फ्रीडम फॉर्म टॉचर ने सरकार के कार्यों की निंदा की। साथ ही कहा कि इस सरकार ने मानवता को खो दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की रवांडा पॉलिसी लगातार विवादों में बनी हुई है। वह अवैध रूप से ब्रिटेन आने वालों के लिए बनाई गई रवांडा पॉलिसी को लेकर कई बार घिर चुके

हैं। ब्रिटेन की रवांडा पॉलिसी उन शरणार्थियों पर लागू कर रहे हैं, जो इंग्लिश चैनल पार करके आ रहे हैं। ये वे लोग हैं, जो अवैध तरीके से ब्रिटेन पहुंचते हैं। ब्रिटिश नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स एक्ट के मुताबिक, केवल उन्हीं लोगों को देश में शरण मिल सकती है, जो वैध ढंग से आए हों और यूरोप के किसी देश के रहने वाले हों। लेकिन ज्यादातर लोग युद्ध में घिरे देशों से भागकर आए हैं। ब्रिटेन उन्हें वापस भगाकर खुद को कहर नहीं दिखा सकता। यही वजह है कि उसने रवांडा के साथ ऐसा करार किया, जिससे वह आए अवैध लोग रवांडा डिपोर्ट किया जाए।

चीन अमेरिका के बीच फिर से शुरू हो रही पांडा कूटनीति, दो बड़े पांडा जाएंगे सैन डिअगो जू

बीजिंग , एजेंसी। यूक्रेन में रूस के युद्ध, सस्ते चीनी निर्यात, ताइवान के साथ तनाव और मानवाधिकार के मामलों को लेकर इन दिनों अमेरिका और चीन के बीच मतभेद हो सकते हैं। लेकिन जब विशाल पांडा की बात आती है, तो कूटनीति वापस आ जाती है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस सप्ताह पुष्टि की कि दो विशाल पांडा - युन चुआन और शिन बाओ - को चीन संरक्षण और अनुसंधान केंद्र से सैन डिअगो चिड़ियाघर भेजा जाएगा। चिड़ियाघर की पांडा संरक्षण अनुसंधान पर चीन के साथ दीर्घकालिक साझेदारी है और मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि आगामी आदान-प्रदान प्रमुख बीमारियों की रोकथाम और उपचार और आवास संरक्षण पर केंद्रित होगा। प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, हमारा मानना है कि चीन-यू.एस. इस क्षेत्र में सहयोग गहरा होगा, यह लुप्तप्राय वन्यजीवों और जैव विविधता संरक्षण पर सहयोग और

अनुसंधान की क्षमता को बढ़ाएगा और लुप्तप्राय वन्यजीवों के संरक्षण और चीनी और अमेरिकियों के बीच मित्रता में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि नए पांडा कब आएंगे, लेकिन समझौते से यह चिंता दूर होनी चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच हालिया तनाव से पांडा कूटनीति को किसी तरह का कोई खतरा होगा। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण भाव के रूप में चीन पांच दशकों से अधिक समय से अमेरिकी चिड़ियाघरों को भालू उधार दे रहा है। लेकिन पिछले कई सालों में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने अधिकांश पांडा चीन को लौटा रहा है जिसके चलते कई प्रशासकों को यह चिंता थी कि यह प्रथा समाप्त हो सकती है। नवंबर में, दो वयस्क पांडा, मेई जियांग और तियान लियान और उनके 3 वर्षीय शावक, जिओ क्यूई जी को वाशिंगटन के राष्ट्रीय चिड़ियाघर से उरुकों में ले जाया गया और फिर पांडा एक्सप्रेस नामक फेडरेक्स बॉइंग 777 पर वापस चीन ले जाया गया। सैन डिअगो चिड़ियाघर ने



अपना आखिरी पांडा 2019 में वापस भेज दिया था। पिछले अप्रैल में, मेम्फिस चिड़ियाघर ने अपनी मादा विशाल पांडा, या या वापस भेज दी थी। सैन डिअगो चिड़ियाघर वन्यजीव गठबंधन की संरक्षण टीम के नेताओं ने हाल ही में पांडा से मिलने के लिए चीन की यात्रा की। युन चुआन लगभग 5 वर्षीय मेल पांडा है जिसकी माँ का

शक्तिशाली उदाहरण के रूप में काम किया है कि जब हम एक साथ काम करते हैं, तो हम वह हासिल कर सकते हैं जो कभी असंभव माना जाता था। विशाल पांडा के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने का हमारा साझा लक्ष्य है। यह घोषणा चीन के साथ अमेरिकी संबंधों को स्थिर करने के

जन्म 2007 में सैन डिअगो चिड़ियाघर में हुआ था। लगभग 4 साल की मादा शिन बाओ का जन्म सिसुआन प्रांत के वोलोंग शेनशुपिंग पांडा बेस में हुआ था। सैन डिअगो चिड़ियाघर वन्यजीव गठबंधन में संरक्षण विज्ञान के उपाध्यक्ष डॉ. मेगन ओवेन ने कहा, दशकों से हमारी साझेदारी ने एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में काम किया है कि जब हम एक साथ काम करते हैं, तो हम वह हासिल कर सकते हैं जो कभी असंभव माना जाता था। विशाल पांडा के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने का हमारा साझा लक्ष्य है। यह घोषणा चीन के साथ अमेरिकी संबंधों को स्थिर करने के लिए बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के हालिया प्रयासों को दिखाती है। अप्रैल में, टेजरी सचिव जेनेट एल. येलेन और राज्य सचिव एंटनी जे. ब्लिंकन ने चीन की अलग-अलग यात्राएं कीं, जहां उन्होंने चीन के हरित ऊर्जा निर्यात में हालिया उछाल और शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच संबंधों के विशेषज्ञों ने पांडा के प्रतीकवाद की सराहना की, लेकिन कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी अधिक प्रगति की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीन प्रभाग के पूर्व प्रमुख ईश्वर प्रसाद ने आशा व्यक्त की कि पांडा संरक्षण पर सहयोग से जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों पर अधिक सहयोग हो सकता है। ईश्वर प्रसाद, जो कार्नेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं, ने कहा, पांडा की एक जोड़ी, भले ही वे प्यारे और रोएँदार हों, चीन-अमेरिका संबंधों को आसान बनाने के लिए अपने आप में बहुत कुछ नहीं पाएंगे।